


Āchārya Umāsvami's  
**Tattvārthsūtra**

WITH HINDI AND ENGLISH TRANSLATION

आचार्यश्री उमास्वामी विरचित

**तत्त्वार्थसूत्र**



परस्परोपग्रहो जीवानाम्

---

Foreword by:  
**Āchārya 108 Vidyanandji Muniraj**

---

Edited by:  
**Vijay K. Jain**

Āchārya Umāsvami's  
***Tattvārthsūtra***

WITH HINDI AND ENGLISH TRANSLATION

श्रीमदाचार्य उमास्वामी-विरचित  
तत्त्वार्थसूत्र



Āchārya Umāsvami's  
***Tattvārthsūtra***

WITH HINDI AND ENGLISH TRANSLATION

श्रीमदाचार्य उमास्वामी-विरचित  
**तत्त्वार्थसूत्र**

हिन्दी अनुवाद उद्घरणः

‘मोक्षशास्त्र अर्थात् तत्त्वार्थसूत्र’ (चतुर्थ आवृत्ति) -  
श्री रामजीभाई माणेकचन्द दोशी की गुजराती टीका का  
पण्डित परमेष्ठीदास द्वारा हिन्दी अनुवाद।  
प्रकाशक ( वि. सं. २०२८ ): श्री दिगम्बर जैन  
स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

**English translation excerpted from:**


‘*Reality*’ by Prof. S.A. Jain which is an English  
translation of Āchārya Pujyapāda’s  
‘*Sarvārthasiddhi*’ – a commentary on Āchārya  
Umāsvami’s ‘*Tattvārthādhigama Sūtra*’

**Published (1960) by:** Vira Sasana Sangha,  
29 Indra Biswas Road, Calcutta-37.

---

**Edited by:**  
**Vijay K. Jain**

---



विकल्प

Āchārya Umāsvami's  
***Tattvārthsūtra***

WITH HINDI AND ENGLISH TRANSLATION

***Edited by:***  
**Vijay K. Jain**

***Non-Copyright***

This work may be reproduced, translated and published in any language without any special permission, provided that it is true to the original and that a mention is made of the source.

**ISBN 81-903639-2-1**

**Rs. 250/-**

***Published, in the year 2011, by:***

**Vikalp Printers**


Anekant Palace, 29 Rajpur Road  
Dehradun-248001 (Uttarakhand) India  
E-mail: vikalp\_printers@rediffmail.com  
Tel.: (0135) 2658971

***Printed at:***

**Vikalp Printers, Dehradun**

## FOREWORD

**Ā**chārya Umāsvami's *Tattvārthsūtra* with Hindi and English literature translation is of great value to every human being. Right Faith, Right Knowledge, and Right Conduct shall give us true and everlasting happiness. "Live and let others live" should be our motto. The true character of our soul is to help one another. Imparting knowledge to others leads to the influx of virtuous karmas. Humility and modesty determine high status. One should make efforts to give up anger, greed, pride and fearfulness. Violence leads to calamity in this life and thereafter. Charity is the giving of one's wealth to another for mutual benefit. Giving up external and internal attachments shall liberate our soul. All my blessings to this great work, which is deep in thought and simple in expression.



आचार्य विद्यानंद

Kundkund Bharti  
New Delhi  
2nd January, 2011

**Āchārya 108  
Vidyanandji  
Muniraj**

## P R E F A C E

**A**chārya Umāsvami was the Chief Disciple of Āchārya Kundkund – the most revered Āchārya in the *duṣṣama* division of the present descending cycle of time, whose works have been possible to document and preserve. Āchārya Umāsvami lived in the second century AD.<sup>1</sup>

The above cited work states that a special feature of Āchārya Umāsvami's *Tattvārthsūtra* is that it is the first Jaina scripture written in the Sanskrit language. Most learned and venerable Āchāryas including Shri Pujyapādasvami, Shri Akalankasvami, and Shri Vidhyanandisvami have written extensive commentaries on *Tattvārthsūtra*. *Sarvārthasiddhi*, *Rājavārtika*, *Ślokavārtika*, and *Arthaprakāṣika* are all commentaries on this scripture. The work is of great value for the beginner as well as for the learned. Its composition has great charm. Each Sūtra is composed in least possible words and can easily be memorized. Many Jains recite these Sūtras.

In his Foreword to *Reality* Professor A. Chakravarti writes:

*Sarvārthasiddhi* by Shri Pujyapāda is the oldest extant commentary on *Tattvārthādhigama Sūtra* by Shri Umāsvami.

It is noted for its depth of thought and simplicity of expression. This famous work is a compendium of all aspects of Jaina Religion and Philosophy. The author's literary skill is evident in the charm and beauty of his style. His mastery of philosophic thought is clear from his lucid exposition of the complex reality. The greatness of the work can be realized from the fact that the great logician, Shri Akalanka Deva, thought it fit to base his well-known commentary of *Rājavārtika* on *Sarvārthasiddhi*.<sup>2</sup>

Professor S.A. Jain's comments on the subject matter are equally illuminating:

Shri Pujyapāda's *Sarvārthasiddhi* has exercised a great fascination on my mind ever since I commenced the study of this great work. Very few works of the world's literature have inspired me to the same extent or have provided equally satisfactory answers to the world's riddles, which have perplexed the greatest thinkers of all ages. No philosophical work that I know of treats of the great issues that confront humanity with the same simplicity, charm, ease and freedom.<sup>3</sup>

My endeavour to make a study of *Tattvārthsūtra* has helped me immensely in my quest for understanding life, and pursuit of happiness. The hardships and afflictions that we have to endure are of our own making. Our deeds, driven by passions, lead to sufferings and reproach in this world and in the next. Virtuous activity alone, which is the cause of merit (*puṇya*), leads to joyous feeling, auspicious life, charming and lustrous physique, and high status. Bread-winning and career-building can at best be tasks in life and not the sole purpose of it. Our ultimate goal is the attainment of the divine attributes, in fullness and perfection, of our souls. We can reach our goal only through the three-fold path of right faith, right knowledge and right conduct.

A small effort in the right direction at this stage of our existence as human beings – which is absolutely invaluable – can lead to innumerable years of life endowed with happiness and glory, and ultimately to infinite faith, knowledge, perception, and perfection.

There are several authoritative works on the subject which are available in various Jaina temples and libraries. The present book can be a useful starting point for those who would like to delve into the complex issues dealt in *Tattvārthsūtra*.

I make obeisance humble at the worshipful feet of the perfect souls embodied, possessed of infinite knowledge, happiness and power; the perfect souls in nirvana, formless and bodiless, free



from all karmic attachment; the masters of adepts in spirituality; the adepts guiding the scholar-ascetics; and the ascetics devoted to the contemplation of self.

## THE ULTIMATE CONTRIBUTION

As the present work was nearing completion, an apprehension started to kindle within me: given my status as a mundane householder, and limited knowledge – like a drop in the ocean – of the issues covered in *Tattvārthsūtra*, many learned individuals may not find themselves sufficiently enthused to go through the work with right earnest.

I thought of showing the final proofs to the Most Learned, Teacher of Teachers, Āchārya 108 Vidyanandji Muniraj at Kundkund Bharti, New Delhi. On a cold December afternoon, I reached Kundkund Bharti and waited on its sprawling lawns for the Muniraj to come out after his routine *Samayika* (periodical concentration, equanimity). Just before 3.0 p.m., the Muniraj walked out majestically with a white '*pichchi*' in his hand. While the others were beset by shivering cold wind, the Muniraj seemed to have conquered the nature by dwelling in the warm house of inner knowledge.

I touched the worshipful feet of the Muniraj, he took seat on a wooden stool, and with great nervousness I handed over to him the folder containing the final proofs of the book. His first observation was that the presentation seemed to be attractive and it immediately allayed partially my anxiety. He then read aloud the *Mangalacharan*, followed by the first Sūtra –

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥

The Āchārya guided that a corollary of this Sūtra –

मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि संसारमार्गः ॥

Wrong belief, knowledge, and conduct (together) constitute the path to eternal transmigration.

should also be reflected upon by all.

The Āchārya called for his disciple saint, Upādhyāya 108 Shri

Pragyasagarji, and asked him to have a look at the proofs. In the meantime, he very kindly handed over to me several of his recent publications, and two different books on Āchārya Kundkund's *Samaysār*. One was a palm-sized book<sup>4</sup> from which he asked me to reflect upon the following verse –

एदम्हि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि ।

एदेण होहि तित्तो होहिदि तुह उत्तमं सौक्खं ॥

(7-14-206)

[O *bhavya!*] (potential aspirant to liberation), you must always adore this knowledge (Right Knowledge), in it only you must remain contented, and in it only you must remain immersed; you will thus attain supreme bliss.

How naturally and incessantly the Āchārya was engaged in the process of purging the soul of everyone who came in contact with him from the mire of karmic matter, with the pure water of Right Knowledge!

He acquiesced to write the Foreword for the book. The book was now going to have a 'soul'. His compassion pulled out the emotional sting that was causing me concern. I again touched the pious feet of the Āchārya with my forehead as he went inside.

Dehradun

**Vijay K. Jain**

December, 2010

### References

- 1 In Preface to '*Mokshashāstra arthāt Tattvārthsūtra*', originally written in Gujarati by Ramjibhai Manekchand Doshi and translated into Hindi by Pandit Parmeshthidas, (Shri Digambar Jain Swadhyaya Mandir Trust, Songarh, Saurashtra, Fourth Edition, 1971, p. 13).
- 2 Jain, S.A., '*Reality* : English Translation of Shri Puḡyapāda's *Sarvārthasiddhi*', (Vira Sasana Sangha, Calcutta-37, 1960).
- 3 *Ibid.*
- 4 Pt. Balbhadrā Jain (*Ed.*), Āchārya Kundkund's *Samaysār*, (Kundkund Bharti, 18-B Special Institutional Area, New Delhi-110067, 2006, p. 172).

## EDITOR'S BIOGRAPHICAL NOTE

Having had his schooling from Mhow and Bhopal in Madhya Pradesh, Vijay K. Jain did his graduation in Electronics Engineering from Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi, and Post-Graduation in Management from Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Mr. Jain had earlier been associated, as a visiting faculty, with the teaching of marketing and entrepreneurship. He is an Ex-President of Dehradun Management Association. He has written/edited several books: 'Marketing Management for Small Units', 'जैन धर्म - मंगल परिचय', 'From IIM-Ahmedabad to Happiness', and 'शुभज्ञानोपयोग', besides publishing many monographs and articles.

He is the proprietor of Vikalp Printers, a high-end printing and publishing firm, based in Dehradun.

---

# CONTENTS

	PAGE
अध्याय - १	
Faith and Knowledge	----- 2
अध्याय - २	
The Category of the Living	----- 15
अध्याय - ३	
The Lower World and the Middle World	----- 36
अध्याय - ४	
The Celestial Beings	----- 51
अध्याय - ५	
The Category of the Non-Living	----- 66
अध्याय - ६	
Influx of Karma	----- 80
अध्याय - ७	
The Five Vows	----- 93
अध्याय - ८	
Bondage of Karma	----- 113
अध्याय - ९	
Stoppage and Shedding of Karma	----- 126
अध्याय - १०	
Liberation	----- 146

<b>Epilogue</b>	-----	152
<b>Index (Hindi)</b>	-----	153
<b>Index (English)</b>	-----	158
<b>Acknowledgment</b>	-----	163

---

Āchārya Umāsvami's  
***Tattvārthsūtra***

WITH HINDI AND ENGLISH TRANSLATION

श्रीमदाचार्य उमास्वामी-विरचित  
**तत्त्वार्थसूत्र**

---

**\* मंगलाचरण \***

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्।  
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये॥

मोक्षमार्ग के प्रवर्तक, कर्मरूपी पर्वतों के भेदक अर्थात् नष्ट करने वाले, तथा विश्व के (समस्त) तत्त्वों के जानने वाले (आप्त) को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ – वन्दना करता हूँ।

I bow to the Lord, the promulgator of the path to liberation, the destroyer of mountains<sup>1</sup> of karmas and the knower of the whole of reality, so that I may realize these qualities.

**\* \* \***

---

<sup>1</sup> mountains: large heaps

अथ प्रथमोऽध्यायः  
Faith and Knowledge

---

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

[ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि ] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, तीनों मिलकर [ मोक्षमार्गः ] मोक्ष का मार्ग है, अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है।

Right faith, right knowledge, and right conduct (together) constitute the path to liberation.

---

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

[ तत्त्वार्थश्रद्धानं ] तत्त्व (वस्तु) के स्वरूप सहित अर्थ-जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना [ सम्यग्दर्शनम् ] सम्यग्दर्शन है।

Belief in substances ascertained as they are is right faith.

---

तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥३॥

[ तत् ] वह सम्यग्दर्शन [ निसर्गात् ] स्वभाव से [ वा ] अथवा [ अधिगमात् ] दूसरे के उपदेशादि से उत्पन्न होता है।

.....

That (This right faith) is attained by intuition or by acquisition of knowledge.

---

**जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥४॥**

[ जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षाः ] 1. जीव,  
2. अजीव, 3. आस्त्रव, 4. बन्ध, 5. संवर, 6. निर्जरा और  
7. मोक्ष - यह सात [ तत्त्वम् ] तत्त्व हैं।

(The) soul, (the) non-soul, influx, bondage, stoppage, gradual dissociation and liberation constitute reality.

---

**नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्यासः ॥५॥**

[ नामस्थापनाद्रव्यभावतः ] नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से  
[ तत्न्यासः ] उन सात तत्त्वों तथा सम्यग्दर्शनादि का लोक व्यवहार होता है।

These are installed (in four ways) by name, representation, substance (potentiality) and actual state.

---



## प्रमाणनयैरधिगमः ॥६॥

सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्त्वों का [ अधिगमः ] ज्ञान [ प्रमाणनयैः ] प्रमाण और नयों से होता है।

Knowledge (of the seven categories) is attained by means of *pramāṇa*<sup>1</sup> and *naya*<sup>2</sup>.

## निर्देशस्वामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥

[ निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः ] निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से भी सम्यग्दर्शनादि तथा जीवादिक तत्त्वों का अधिगम होता है।

(Knowledge of the seven categories is attained) by description, ownership, cause, resting place (substratum), duration, and division.

## सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥८॥

[ च ] और [ सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भावाल्पबहुत्वैः ] सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है।

<sup>1</sup> *pramāṇa* : comprehensive knowledge

<sup>2</sup> *naya* : standpoint

(The seven categories are known) also by existence, number (enumeration), place or abode, extent of space (pervasion), time, interval of time, thought-activity, and reciprocal comparison.

---

**मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥९॥**

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच [ ज्ञानम् ] ज्ञान हैं।

Knowledge is of five kinds – sensory knowledge, scriptural knowledge, clairvoyance, telepathy, and omniscience.

---

**तत्प्रमाणे ॥१०॥**

[ तत् ] उपरोक्त पाँचों प्रकार के ज्ञान ही [ प्रमाणे ] प्रमाण (सच्चे ज्ञान) हैं।

These (five kinds of knowledge) are the two types of *pramāṇa* (valid knowledge).

---

**आद्ये परोक्षम् ॥११॥**

[ आद्ये ] प्रारम्भ के दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान [ परोक्षम् ] परोक्ष प्रमाण हैं।

The first two (kinds of knowledge) are indirect (knowledge).

---

### प्रत्यक्षमन्यत् ॥१२॥

[ अन्यत् ] शेष तीन अर्थात् अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान [ प्रत्यक्षम् ] प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

The remaining three constitute direct (knowledge).

---

### मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

[ मतिः ] मति, [ स्मृतिः ] स्मृति, [ संज्ञा ] संज्ञा, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ अभिनिबोध ] अभिनिबोध, [ इति ] इत्यादि, [ अनर्थान्तरम् ] अन्य पदार्थ नहीं हैं, अर्थात् वे मतिज्ञान के नामांतर है।

Sensory cognition, remembrance, recognition, induction, and deduction are synonyms.

---

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥

[ इन्द्रियानिन्द्रिय ] इन्द्रियाँ और मन [ तत् ] उस मतिज्ञान के [ निमित्तम् ] निमित्त हैं।

That is caused by the senses and the mind.

अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥

[ अवग्रह ईहा अवाय धारणाः ] अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणा यह चार भेद हैं।

(The four divisions of sensory knowledge are) apprehension (sensation), speculation, perceptual judgment, and retention.

बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ॥१६॥

[ बहु ] बहुत [ बहुविध ] बहुत प्रकार [ क्षिप्र ] जल्दी [ अनिःसृत ] अनिःसृत [ अनुक्त ] अनुक्त [ ध्रुवाणां ] ध्रुव [ सेतराणां ] उनसे उल्टे भेदों से युक्त अर्थात् एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त, और अध्रुव, इस प्रकार बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईहादिरूप ज्ञान होता है।

(The subdivisions of each of these are) more, many kinds, quick, hidden, unexpressed, lasting, and their opposites.

---

### अर्थस्य ॥१७॥

उपरोक्त बारह अथवा 288 भेद [ अर्थस्य ] पदार्थ के (द्रव्य के - वस्तु के) हैं।

(These are the attributes) of substances (objects).

---

### व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥

[ व्यञ्जनस्य ] अप्रगटरूप शब्दादि पदार्थों का [ अवग्रहः ] मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, ईहादि तीन ज्ञान नहीं होते।

(There is only) apprehension of indistinct things.

---

### न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१९॥

व्यञ्जनावग्रह [ चक्षुः अनिन्द्रियाभ्याम् ] नेत्र और मन से [ न ] नहीं होता।

Indistinct apprehension does not arise by means of the eyes and the mind.

---

श्रुतं मतिपूर्व द्व्यनेकद्वादशभेदम् ॥२०॥

[ श्रुतम् ] श्रुतज्ञान [ मतिपूर्व ] मतिज्ञान पूर्वक होता है अर्थात् मतिज्ञान के बाद होता है, वह श्रुतज्ञान [ द्व्यनेकद्वादशभेदम् ] दो, अनेक और बारह भेदवाला है।

Scriptural knowledge preceded by sensory knowledge is of two kinds, which are of many and twelve subdivisions.

---

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

[ भवप्रत्ययः ] भवप्रत्यय नामक [ अवधिः ] अवधिज्ञान [ देवनारकाणाम् ] देव और नारकियों के होता है।

Clairvoyance (*avadhi*) based on birth is possessed by celestial and infernal beings.

---

क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥२२॥

[ क्षयोपशमनिमित्तः ] क्षयोपशमनैमित्तक अवधिज्ञान

[ षड्विकल्पः ] अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित - ऐसे छह भेदवाला है, और वह

[ शेषाणाम् ] मनुष्य तथा तिर्यचों के होता है।

Clairvoyance from destruction-cum-subsidence (i.e. arising on the lifting of the veil) is of six kinds. It is acquired by the rest (namely human beings and animals).

ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥२३॥

[ मनःपर्ययः ] मनःपर्ययज्ञान [ ऋजुमतिविपुलमतिः ]

ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकार का है।

*Rjumati* and *vipulmati* are the two kinds of telepathy (*manahpariyaya*).

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥

[ विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां ] परिणामों की विशुद्धि और

अप्रतिपात अर्थात् केवलज्ञान होने से पूर्व न छूटना

[ तद्विशेषः ] इन दो बातों से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशेषता (अन्तर) है।

.....

The differences between the two are due to purity and infallibility.

---

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

[ अवधिमनःपर्यययोः ] अवधि और मनःपर्ययज्ञान में

[ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः ] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषता होती है।

Telepathy (*manahparyaya*) and clairvoyance (*avadhi*) differ with regard to purity, space, knower and objects.

---

मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

[ मतिश्रुतयोः ] मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का [ निबन्धः ]

विषय-सम्बन्ध [ असर्वपर्यायेषु ] कुछ (न कि सर्व) पर्यायों से युक्त [ द्रव्येषु ] जीव पुद्गलादि सर्व द्रव्यों में है।

The range of sensory knowledge and scriptural knowledge extends to all the six substances but not to all their modes.

---



## रूपिष्ववधेः ॥२७॥

[ अवधेः ] अवधिज्ञान का विषय-सम्बन्ध [ रूपिषु ] रूपी द्रव्यों में है अर्थात् अवधिज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है।

The scope of clairvoyance is that which has form.

---

## तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥

[ तत् अनन्तभागे ] सर्वावधिज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के अनन्तवें भाग में [ मनःपर्ययस्य ] मनःपर्ययज्ञान का विषय-सम्बन्ध है।

The scope of telepathy is the infinitesimal part of the matter ascertained by clairvoyance.

---

## सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२९॥

[ केवलस्य ] केवलज्ञान का विषय-सम्बन्ध [ सर्वद्रव्य-पर्यायेषु ] सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं, अर्थात् केवलज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है।

Omniscience (*kevala jñāna*) extends to all entities (substances) and all their modes simultaneously.

---

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥

[ एकस्मिन् ] एक जीव में [ युगपत् ] एक साथ  
[ एकदीनि ] एक से लेकर [ आचतुर्भ्यः ] चार ज्ञान तक  
[ भाज्यानि ] विभक्त करने योग्य हैं, अर्थात् हो सकते हैं।

From one up to four kinds of knowledge can be possessed simultaneously by a single soul.

मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥३१॥

[ मतिश्रुतावधयः ] मति, श्रुत और अवधि यह तीन ज्ञान  
[ विपर्ययश्च ] विपर्यय भी होते हैं।

Sensory knowledge, scriptural knowledge and clairvoyance may also be erroneous knowledge.

सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥

[ यदृच्छोपलब्धेः ] अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण [ सत् असतोः ] विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का [ अविशेषात् ] भेदरूप ज्ञान (यथार्थ विवेक) न होने से [ उन्मत्तवत् ] पागल के ज्ञान की भाँति मिथ्यादृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात् मिथ्याज्ञान ही होता है।

Owing to the lack of discrimination between the real and the unreal, wrong knowledge is whimsical as that of a lunatic.

---

नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता  
नयाः ॥३३॥

[ नैगम ] नैगम, [ संग्रह ] संग्रह, [ व्यवहार ] व्यवहार,  
[ ऋजुसूत्र ] ऋजुसूत्र, [ शब्द ] शब्द, [ समभिरूढ ]  
समभिरूढ, [ एवंभूता ] एवंभूत - यह सात [ नयाः ] नय हैं।

The figurative, the synthetic, the analytic, the straight, the verbalistic, the conventional and the specific are the standpoints.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥

\* \* \*

अथ द्वितीयोऽध्यायः  
The Category of the Living

---

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य  
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥१॥

[ जीवस्य ] जीव के [ औपशमिकक्षायिकौ ] औपशमिक और क्षायिक [ भावौ ] भाव [ च मिश्रः ] और मिश्र तथा [ औदयिक-पारिणामिकौ च ] औदयिक और पारिणामिक यह पाँच भाव [ स्वतत्त्वम् ] निजभाव हैं अर्थात् यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते।

The distinctive characteristics of the soul are the dispositions (thought-activities) arising from subsidence, destruction, destruction-cum-subsidence of karmas, the rise of karmas, and the inherent nature or capacity of the soul.

---

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाः यथाक्रमम् ॥२॥

उपरोक्त पाँच भाव [ यथाक्रमम् ] क्रमशः [ द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदाः ] दो, नव, अट्टारह, इक्कीस और तीन भेद वाले हैं।

(These are of) two, nine, eighteen, twenty-one, and three kinds respectively.

---

### सम्यक्त्वचारित्रे ॥३॥

[ सम्यक्त्व ] औपशमिक सम्यक्त्व और [ चारित्रे ]

औपशमिक चारित्र - इस प्रकार औपशमिकभाव के दो भेद हैं।

(The two kinds are) right belief and conduct.

---

### ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥

[ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि ]

केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिकवीर्य तथा [ च ] च कहने पर, क्षायिकसम्यक्त्व और क्षायिकचारित्र - इस प्रकार क्षायिकभाव के नौ भेद हैं।

(The nine kinds are) knowledge, perception, gift, gain, enjoyment, re-enjoyment, energy, etc.

---

**ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः  
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥५॥**

[ ज्ञान अज्ञान ] मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय यह चार ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये तीन अज्ञान, [ दर्शन ] चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन दर्शन, [ लब्धयः ] क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये पाँच लब्धियाँ [ चतुः त्रि त्रि पञ्च भेदाः ] इस प्रकार  $4+3+3+5=15$  भेद तथा [ सम्यक्त्व ] क्षायोपशमिक सम्यक्त्व [ चारित्र ] क्षायोपशमिक चारित्र [ च ] और [ संयमासयमाः ] संयमासंयम - इस प्रकार क्षायोपशमिकभाव के 18 भेद हैं।

(The eighteen kinds are) knowledge, wrong knowledge, perception, and attainment, of four, three, three, and five kinds, and right faith, conduct, and mixed disposition of restraint and non-restraint.

**गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्ध  
लेश्याश्चतुश्चतुस्त्र्येकैकैकैकषड्भेदाः ॥६॥**

[ गति ] तिर्यच, नरक, मनुष्य और देव - यह चार गतियाँ,  
[ कषाय ] क्रोध, मान, माया, लोभ - यह चार कषायें,  
[ लिंग ] स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसंकवेद - यह तीन लिंग,  
[ मिथ्यादर्शन ] मिथ्यादर्शन [ अज्ञान ] अज्ञान [ असंयत ]  
असंयम [ असिद्ध ] असिद्धत्व तथा [ लेश्याः ] कृष्ण, नील,  
कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल - यह छह लेश्यायें, इस प्रकार  
[ चतुः चतुः त्रि एक एक एक एक षड् भेदाः ]  
 $4+4+3+1+1+1+1+6=21$ , इस प्रकार सब मिलाकर  
औद्यिकभाव के 21 भेद हैं।

(These are) the conditions of existence, the passions, sex, wrong belief, wrong knowledge, non-restraint, non-attainment of perfection (imperfect disposition), and colouration, which are of four, four, three, one, one, one, one, and six kinds.

---

### जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥

[ जीवभव्याभव्यत्वानि च ] जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व  
- इस प्रकार पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं।

(The three are) the principle of life (consciousness), capacity for salvation, and incapacity for salvation.

## उपयोगो लक्षणम् ॥८॥

[ लक्षणम् ] जीव का लक्षण [ उपयोगः ] उपयोग है।

Consciousness is the differentia (distinctive characteristic) of the soul.

---

## स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥९॥

[ सः ] वह उपयोग [ द्विविधः ] ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार का है, और वे क्रमशः [ अष्ट चतुर्भेदः ] आठ और चार भेद सहित हैं अर्थात् ज्ञानोपयोग के मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल (यह पाँच सम्यग्ज्ञान) और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि (यह तीन मिथ्याज्ञान) इस प्रकार आठ भेद हैं। तथा दर्शनोपयोग के चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इस प्रकार चार भेद हैं। इस प्रकार ज्ञान के आठ और दर्शन के चार भेद मिलकर उपयोग के कुल बारह भेद हैं।

Consciousness is of two kinds. And these in turn are of eight, and four kinds respectively.

---



## संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

जीव [ संसारिणः ] संसारी [ च ] और [ मुक्ताः ] मुक्त -  
ऐसे दो प्रकार के हैं। कर्म सहित जीवों को संसारी और कर्म  
रहित जीवों को मुक्त कहते हैं।

The transmigrating and the emancipated souls.

---

## समनस्काऽमनस्काः ॥११॥

संसारी जीव [ समनस्काः ] मनसहित-सैनी [ अमनस्काः ]  
मनरहित-असैनी, यों दो प्रकार के हैं।

(The two kinds of transmigrating souls are those)  
with and without minds.

---

## संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥१२॥

[ संसारिणः ] संसारी जीव [ त्रस ] त्रस और [ स्थावराः ]  
स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं।

The transmigrating souls are (of two kinds), the  
mobile and the immobile beings.

---

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

[ पृथिवी अप् तेजः वायुः वनस्पतयः ] पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक - यह पाँच प्रकार के [ स्थावराः ] स्थावर जीव हैं। (इन जीवों के मात्र एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है।)

Earth, water, fire, air and plants are immobile beings.

द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥१४॥

[ द्विइन्द्रिय आदयः ] दो इन्द्रिय से लेकर अर्थात् दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीव [ त्रसाः ] त्रस कहलाते हैं।

The mobile beings are from the two-sensed beings onwards.

पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥

[ इन्द्रियाणि ] इन्द्रियाँ [ पञ्च ] पाँच हैं।

The senses are five.

## द्विविधानि ॥१६॥

सब इन्द्रियाँ [ द्विविधानि ] द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार की हैं।

(The senses are of) two kinds.

---

## निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

[ निर्वृत्ति उपकरणे ] निर्वृत्ति और उपकरण को [ द्रव्येन्द्रियम् ] द्रव्येन्द्रिय कहते हैं।

The physical sense consists of accomplishment (of the organ itself) and means or instruments – (its protecting environment).

---

## लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥

[ लब्धि उपयोगौ ] लब्धि और उपयोग को [ भावेन्द्रियम् ] भावेन्द्रिय कहते हैं।

The psychic sense consists of attainment and consciousness.

---

## स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९॥

[ स्पर्शन ] स्पर्शन, [ रसन ] रसना, [ घ्राण ] नाक, [ चक्षुः ]  
चक्षु और [ श्रोत्र ] कान - यह पाँच इन्द्रियाँ हैं।

Touch, taste, smell, sight, and hearing (are the  
senses).

---

## स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदार्थाः ॥२०॥

[ स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः ] स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण (रंग),  
शब्द - यह पाँच क्रमशः [ तत् अर्थाः ] उपरोक्त पाँच  
इन्द्रियों के विषय हैं अर्थात् उपरोक्त पाँच इन्द्रियाँ उन-उन  
विषयों को जानती हैं।

Touch, taste, smell, colour and sound are the  
objects of the senses.

---

## श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

[ अनिन्द्रियस्य ] मन का विषय [ श्रुतम् ] श्रुतज्ञानगोचर पदार्थ  
हैं अथवा मन का प्रयोजन श्रुतज्ञान है।

Scriptural knowledge is the province of the mind.

## वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

[ वनस्पति अन्तानाम् ] वनस्पतिकाय जिसके अन्त में है ऐसे जीवों के अर्थात् पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों के [ एकम् ] एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है।

Up to the end of plants (there is only) one sense.

---

## कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

[ कृमिपिपीलिकाभ्रमर मनुष्यादीनाम् ] कृमि इत्यादि, चींटी इत्यादि, भ्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि के [ एकैक वृद्धानि ] क्रम से एक एक इन्द्रिय बढ़ती (अधिक-अधिक) है अर्थात् कृमि इत्यादि के दो, चींटी इत्यादि के तीन, भौरा इत्यादि के चार और मनुष्य इत्यादि के पाँच इन्द्रियाँ होती हैं।

The worm, the ant, the bee, and the man, etc., have each one more sense than the preceding one.

---

## संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥

[ समनस्काः ] मनसहित जीवों को [ संज्ञिनः ] सैनी कहते हैं।

The five-sensed beings with minds are called *samjñi jīvas*.

---

**विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥२५॥**

[ **विग्रहगतौः** ] विग्रहगति में अर्थात् नये शरीर के लिये गमन में [ **कर्मयोगः** ] कर्मण काययोग होता है।

In transit from one body to another, (there is) vibration of the karmic body only.

---

**अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥**

[ **गतिः** ] जीव पुद्गलों का गमन [ **अनुश्रेणि** ] श्रेणी के अनुसार ही होता है।

Transit (takes place) in rows (straight lines) in space.

---

**अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥**

[ **जीवस्य** ] मुक्त जीव की गति [ **अविग्रहा** ] वक्रता रहित सीधी होती है।

The movement of a (liberated) soul is without a bend.

---

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥२८॥

[ संसारिणः ] संसारी जीव की गति [ चतुर्भ्यः प्राक् ] चार समय से पहिले [ विग्रहवती च ] वक्रता-मोड़ सहित तथा रहित होती है।

The movement of the transmigrating souls is with bend also prior to the fourth instant.

---

एकसमयाऽविग्रहा ॥२९॥

[ अविग्रहा ] मोड़ रहित गति [ एकसमया ] एक समय मात्र ही होती है अर्थात् उसमें एक समय ही लगता है।

Movement without a bend (takes) one instant.

---

एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहारकः ॥३०॥

विग्रहगति में [ एकं द्वौ वा तीन् ] एक दो अथवा तीन समय तक [ अनाहारकः ] जीव अनाहारक रहता है।

For one, two, or three instants (the soul remains)  
non-assimilative.

---

### सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥

[ सम्मूर्च्छनगर्भोपपादाः ] सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद तीन प्रकार का [ जन्म ] जन्म होता है।

Birth is by spontaneous generation, from the  
uterus or in the special bed.

---

### सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

[ सचित्त शीत संवृताः ] सचित्त, शीत, संवृत [ सेतरा ]  
उससे उलटी तीन - अचित्त, उष्ण, विवृत [ च एकशः  
मिश्राः ] और क्रम से एक एक की मिली हुई तीन अर्थात्  
सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत [ तत् योनयः ] ये नव  
जन्मयोनियाँ हैं।

Living matter, cold, covered, their opposites, and  
their combinations are the nuclei severally.

---



## जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥

[ जरायुज अ डज पोतानां ] जरायुज, अ डज और पोतज इन तीन प्रकार के जीवों के [ गर्भः ] गर्भजन्म ही होता है अर्थात् उन जीवों के ही गर्भजन्म होता है।

Uterine birth is of three kinds, umbilical (with a sac covering), incubatory (from an egg), and unumbilical (without a sac covering<sup>1</sup>).

## देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥

[ देवनारकाणाम् ] देव और नारकी जीवों के [ उपपादः ] उपपादजन्म ही होता है अर्थात् उपपादजन्म उन जीवों के ही होता है।

The birth of celestial and infernal beings is (by instantaneous rise) in special beds<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Some are born with the outer covering of the embryo. Children and calves are born with such outer coverings. The chickens etc. are born from eggs. The young ones of the deer, the cubs, etc. are born without any covering. Their limbs are perfected at the time of birth, and they are immediately active.

<sup>2</sup> The celestial beings are born in box-beds, and the infernal beings in bladders hung from the ceilings of the holes in hell.

## शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥

[ शेषाणां ] गर्भ और उपपाद जन्म वाले जीवों के अतिरिक्त शेष जीवों के [ सम्मूर्च्छनम् ] सम्मूर्च्छन जन्म ही होता है अर्थात् सम्मूर्च्छन जन्म शेष जीवों के ही होता है।

The birth of the rest is by spontaneous generation.

## औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि

॥३६॥

[ औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस कार्मणानि ]

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण

[ शरीराणि ] यह पाँच शरीर हैं।

The gross, the transformable, the projectable or assimilative, the luminous (electric), and the karmic are the five types of bodies.

## परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥

पहिले कहे हुए शरीरों की अपेक्षा [ परं परं ] आगे-आगे के शरीर [ सूक्ष्मम् ] सूक्ष्म-सूक्ष्म होते हैं, अर्थात् औदारिक की अपेक्षा वैक्रियिक सूक्ष्म, वैक्रियिक की अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारक की अपेक्षा तैजस सूक्ष्म, और तैजस की अपेक्षा से कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है।

(The bodies are) more and more subtle successively.

---

### प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥३८॥

[ प्रदेशतः ] प्रदेशों की अपेक्षा से [ तैजसात् प्राक् ] तैजस शरीर से पहिले के शरीर [ असंख्येयगुणं ] असंख्यात्गुने हैं।

Prior to the luminous body, each has innumerable times the number of space-points of the previous one.

---

### अनन्तगुणे परे ॥३९॥

[ परे ] शेष दो शरीर [ अनन्तगुणे ] अनन्तगुने परमाणु (प्रदेश) वाले हैं अर्थात् आहारक शरीर की अपेक्षा अनन्तगुने प्रदेश तैजस शरीर में होते हैं और तैजस शरीर की अपेक्षा अनन्तगुने प्रदेश कार्मण शरीर में होते हैं।

The last two have infinite fold (space-points).

---

### अप्रतीघाते ॥४०॥

तैजस और कार्मण ये दोनों शरीर [ अप्रतीघाते ] अप्रतीघात अर्थात् बाधा रहित हैं।

(The last two are) without impediment.

---

### अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥

[ च ] और यह दोनों शरीर [ अनादिसम्बन्धे ] आत्मा के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध वाले हैं।

(These are of) beginning-less association also.

---

### सर्वस्य ॥४२॥

ये तैजस और कार्मण शरीर [ सर्वस्य ] सब संसारी जीवों के होते हैं।

(These two are associated) with all.

---

### तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥४३॥

[ तदादीनि ] उन तैजस और कार्मण शरीरों से प्रारम्भ करके [ युगपत् ] एक साथ [ एकस्मिन् ] एक जीव के [ आचतुर्भ्यः ] चार शरीर तक [ भाज्यानि ] विभक्त करना चाहिये अर्थात् जानना चाहिये।

Commencing with these, up to four bodies can be had simultaneously by a single soul.

---

निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥

[ अन्त्यम् ] अन्त का कार्मण शरीर [ निरुपभोगम् ] उपभोग रहित होता है।

The last is not the means of enjoyment.

---

गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥४५॥

[ गर्भ ] गर्भ [ सम्मूर्च्छनजम् ] और सम्मूर्च्छन जन्म से उत्पन्न होने वाला शरीर [ आद्यं ] पहिला - औदारिक शरीर कहलाता है।

The first is of uterine birth and spontaneous generation.

---

औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

[ औपपादिकं ] उपपादजन्म वाले अर्थात् देव और नारकियों के शरीर [ वैक्रियिकम् ] वैक्रियिक होते हैं।

The transformable body originates by birth in special beds.

## लब्धिप्रत्ययं च ॥४७॥

वैक्रियिक शरीर [ लब्धिप्रत्ययं च ] लब्धि-नैमित्तिक भी होता है।

Attainment is also the cause (of its origin).

## तैजसमपि ॥४८॥

[ तैजसम् ] तैजस शरीर [ अपि ] भी लब्धि-नैमित्तिक है।

The luminous body also (is caused by attainment).

## शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥४९॥

[ आहारकं ] आहारक शरीर [ शुभम् ] शुभ है अर्थात् वह शुभ कार्य करता है [ विशुद्धम् ] विशुद्ध है अर्थात् वह विशुद्धकर्म (मंद कषाय से बंधने वाले कर्म) का कार्य है।

[ च अव्याघाति ] और व्याघात-बाधारहित है तथा

[ प्रमत्तसंयतस्यैव ] प्रमत्तसंयत (छठवें गुणस्थानवर्ती) मुनि के ही वह शरीर होता है।

The projectable body, which is auspicious and pure and without impediment, originates in the saint of the sixth stage only.

## नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

[ नारकसम्मूर्च्छिनो ] नारकी और सम्मूर्च्छन जन्म वाले  
[ नपुंसकानि ] नपुंसक होते हैं।

The infernal beings and the spontaneously generated are of the neuter sex.

---

## न देवाः ॥५१॥

[ देवाः ] देव [ न ] नपुंसक नहीं होते, अर्थात् देवों के पुरुषलिंग और देवियों के स्त्रीलिंग होता है।

The celestial beings are not (of neuter sex).

---

## शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

[ शेषाः ] शेष के गर्भज मनुष्य और तिर्यच [ त्रिवेदाः ] तीनों वेद वाले होते हैं।

The rest are of three sexes (signs).

---

औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः

॥५३॥

[ औपपादिक ] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, [ चरम उत्तम देहाः ] चरम उत्तम देह वाले अर्थात् उसी भव में मोक्ष जाने वाले तथा [ असंख्येयवर्ष आयुषः ] असंख्यात वर्ष आयु वाले भोगभूमि के जीवों की [ आयुषः अनपवर्ति ] आयु अपवर्तन रहित होती है।

The lifetime of beings born in special beds, those with final, superior bodies and those of innumerable years, cannot be cut short.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः॥

\* \* \*



## अथ तृतीयोऽध्यायः

### The Lower World and the Middle World

---

रत्नशर्करावालुकापंकधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो-  
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥

अधोलोक में रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा - ये सात भूमियाँ हैं और क्रम से नीचे-नीचे घनोदधिवातवलय, घनवातवलय, तनुवातवलय तथा आकाश का आधार है।

The lower world consists of seven earths\* one below the other, surrounded by three kinds of air and space.

---

तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चो नैकनरक-  
शतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पाँचवीं में 3 लाख, छठवीं में पाँच कम एक लाख (99,995) और सातवीं में 5 ही नरक बिल हैं। कुल 84 लाख नरकवास बिल हैं।

---

\* *Ratna, Śarkarā, Vālukā, Pañka, Dhūma, Tamah and Mahātamah* - the word *prabhā* is taken with each of these.

In these (earths) there are thirty hundred thousand, twenty-five hundred thousand, fifteen hundred thousand, ten hundred thousand, three hundred thousand, one hundred thousand less five and only five infernal abodes, respectively.

---

नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना-  
विक्रियाः ॥३॥

नारकी जीव सदैव ही अत्यन्त अशुभ लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया को धारण करते हैं।

The thought-colouration, environment, body, suffering, and shape of body (or deeds) are incessantly more inauspicious in succession among the infernal beings.

---

परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥

नारकी जीव परस्पर एक-दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं (- वे कुत्ते की भांति परस्पर लड़ते हैं)।

They cause pain and suffering to one another.

## संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः ॥५॥

और उन नारकियों के चौथी पृथ्वी से पहिले-पहिले (अर्थात् तीसरी पृथ्वी पर्यन्त) अत्यन्त संक्लिष्ट परिणाम के धारक अम्ब-अम्बरिष आदि जाति के असुरकुमार देवों के द्वारा दुःख पाते हैं अर्थात् अम्ब-अम्बरिष असुरकुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुःख देते हैं तथा उनके पूर्व के वैर का स्मरण करा-करा के परस्पर लड़ाते हैं और दुःखी देख राजी होते हैं।

Pain is also caused by the incitement of malevolent *asurkumāras* prior to the fourth earth.

---

## तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

उन नरकों के नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रम से पहिले में एक सागर, दूसरे में तीन सागर, तीसरे में सात सागर, चौथे में दस सागर, पाँचवें में सत्रह सागर, छठे में बाईस सागर और सातवें में तैंतीस सागर है।

In these infernal regions the maximum duration of life of the infernal beings is one, three, seven, ten, seventeen, twenty-two, and thirty-three *sāgaropamas*.

**जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥**

इस मध्यलोक में अच्छे-अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप इत्यादि द्वीप, और लवणसमुद्र इत्यादि समुद्र हैं।

*Jambūdvīpa, Lavaṇoda, and the rest are the continents and the oceans with auspicious names.*

**द्विद्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥८॥**

प्रत्येक द्वीप-समुद्र दूने-दूने विस्तार वाले और पहिले-पहिले के द्वीप-समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले हैं।

(These) are of double the diameter of the preceding ones and circular in shape, each encircling the immediately preceding one.

**तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो  
जम्बूद्वीपः ॥९॥**

उन सब द्वीप-समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप है, उसकी नाभि के समान सुदर्शन मेरु है, तथा जम्बूद्वीप थाली के समान गोल है और एक लाख योजन उसका विस्तार है।

In the middle of these oceans and continents is *Jambūdvīpa*, which is round and which is one hundred thousands yojanas in diameter. Mount *Meru* is at the centre of this continent like the navel in the body.

---

भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः  
क्षेत्राणि ॥१०॥

इस जम्बूद्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत - ये सात क्षेत्र हैं।

*Bharata, Haimavata, Hari, Videha, Ramyaka, Hairaṇyavata, and Airāvata* are the seven regions.

---

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील-  
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

उन सात क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लम्बे 1- हिमवत्, 2- महामहिमवत्, 3- निषध, 4- नील, 5- रुक्मि और 6- शिखरिन् - ये छह वर्षधर-कुलाचल पर्वत हैं। (वर्ष=क्षेत्र)

The mountain chains *Himavan, Mahāhimavan, Niṣadha, Nīla, Rukmi, and Śikhari*, running east to west, divide these regions.

## हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

ऊपर कहे गये पर्वत क्रम से 1- स्वर्ण, 2- चाँदी, 3- तपाया सोना, 4- वैडूर्य (नील) मणि, 5- चाँदी और 6- स्वर्ण जैसे रंग के हैं।

They are of golden, white, like purified gold, blue, silvery, and golden in colour.

---

## मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१३॥

इन पर्वतों का तट चित्र-विचित्र मणियों का है और ऊपर-नीचे तथा मध्य में एक समान विस्तार वाला है।

The sides (of these mountains) are studded with various jewels, and the mountains are of equal width at the foot, in the middle and at the top.

---

## पद्ममहापद्मतिगिञ्चकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥१४॥

इन पर्वतों के ऊपर क्रम से 1- पद्म, 2- महापद्म, 3- तिगिञ्च, 4- केशरि, 5- महापुण्डरीक और 6- पुण्डरीक नाम के हृद-सरोवर हैं।

*Padma, Mahāpadma, Tigiñcha, Keṣari, Mahāpundarīka, and Pundarīka* are the lakes on the tops of these (mountains).

---

**प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदूर्ध्वविष्कम्भो हृदः ॥१५॥**

पहिला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लम्बाई से आधा अर्थात् पाँच सौ योजन चौड़ा है।

The first lake is 1,000 yojanas in length and half of it in breadth.

---

**दशयोजनावगाहः ॥१६॥**

पहिला सरोवर दश योजन अवगाह (गहराई) वाला है।

The depth is ten yojanas.

---

**तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥**

उसके बीच में एक योजन विस्तार वाला कमल है।

In the middle of this first lake, there is a lotus of the size of one yojana.

---

तद्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

आगे के सरोवर तथा कमल पहिले के सरोवरों तथा कमलों से क्रम से दूने-दूने विस्तार वाले हैं।

The lakes as well as the lotuses are of double the magnitude.

---

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः  
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपारिषत्काः ॥१९॥

एक पल्योपम आयु वाली और सामानिक तथा पारिषद् जाति के देवों सहित श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियाँ क्रम से उन सरोवरों के कमलों पर निवास करती हैं।

In these lotuses live the nymphs called *Śrī*, *Hrī*, *Dhṛti*, *Kīrti*, *Buddhi* and *Lakṣmī*, whose lifetime is one *palya* and who live with *Sāmānikas* and *Pāriṣatkas*.

---

गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरि कान्तासीतासीतोदा-  
नारीनरकान्तासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः  
सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥



(भरत में) गंगा, सिंधु, (हैमवत में) रोहित, रोहितास्या,  
(हरिक्षेत्र में) हरित्, हरिकान्ता, (विदेह में) सीता, सीतोदा,  
(रम्यक् में) नारी, नरकान्ता, (हैरण्यवत् में) स्वर्णकूला,  
रूप्यकूला और (ऐरावत में) रक्ता, रक्तोदा, इस प्रकार ऊपर  
कहे हुए सात क्षेत्रों में चौदह नदियाँ बीच में बहती हैं।

*The Gangā, the Sindhu, the Rohit, the Rohitāsyā, the Harit, the Harikāntā, the Sītā, the Sītodā, the Nāri, the Narakāntā, the Suvarṇakūlā, the Rūpyakūlā, the Raktā, and the Raktodā are the rivers flowing across these regions.*

---

### द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

(ये चौदह नदियाँ दो के समूह में लेना चाहिये) हर एक दो के समूह में से पहली नदी पूर्व की ओर बहती है (और उस दिशा के समुद्र में मिलती है)।

The first of each pair flows eastwards.

---

### शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

बाकी रही सात नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं (और उस तरफ के समुद्र में मिलती हैं)।

The rest are the western rivers.

---

**चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३॥**

गंगा-सिन्धु आदि नदियों के युगल चौदह हजार सहायक नदियों से घिरे हुए हैं।

The *Gangā*, the *Sindhu*, etc. are rivers having 14,000 tributaries.

---

**भरतः षड्विंशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः  
षट्चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥२४॥**

भरत क्षेत्र का विस्तार, पाँच सौ छब्बीस योजन और एक योजन के उन्नीस भागों में से 6 भाग अधिक है।

*Bharata* is  $526 \frac{6}{19}$  yojanas in width.

---

**तद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥**

विदेहक्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्र से दूने-दूने विस्तार वाले हैं।

The mountains and the regions are double in width up to *Videha*.

---

## उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥२६॥

विदेह क्षेत्र से उत्तर के तीन पर्वत और तीन क्षेत्र, दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं।

Those in the north are equal to those in the south.

---

## भरतैरावतयोर्वृद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥

छह कालों से युक्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभवादि की वृद्धि-हानि होती रहती है।

In *Bharata* and *Airāvata* there is rise and fall (regeneration and degeneration) during the six periods of the two aeons of regeneration and degeneration.

---

## ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है - उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता।

The regions other than these are stable.

एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो  
हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥२९॥

हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु (विदेहक्षेत्र के अन्तर्गत एक विशेष स्थान) के मनुष्य, तिर्यच क्रम से एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य की आयु वाले होते हैं।

The human beings in *Haimvata*, *Hari* and *Devakuru* are of one, two and three *palyas* respectively.

---

तथोत्तराः ॥३०॥

उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी हैमवतकादिक के मनुष्यों के समान आयु वाले होते हैं।

The condition is the same in the north.

---

विदेहेषु सङ्ख्येयकालाः ॥३१॥

विदेह क्षेत्रों में मनुष्य और तिर्यचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है।

In *Videhas* the lifetime is numerable years.

भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के एक सौ नव्वेवाँ (190) भाग के बराबर है।

The width of Bharata is one hundred and ninetieth ( $\frac{1}{190}$ ) part of that of *Jambūdvīpa*.

---

द्विर्धातकीखण्डे ॥३३॥

धातकीखण्ड नाम के दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्बूद्वीप से दूनी-दूनी है।

In *Dhātakikhanda* it is double.

---

पुष्करार्द्धे च ॥३४॥

पुष्करार्द्ध द्वीप में भी सब रचना जम्बूद्वीप की रचना से दूनी-दूनी है।

In the (nearest) half of *Puṣkaradvīpa* also.

---

प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात् अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं  
- मानुषोत्तर पर्वत से परे ऋद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नहीं  
जा सकते।

(There are) human beings up to *Mānuṣottara*.

आर्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥

आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य दो प्रकार के हैं।

The civilized people and the barbarians.

भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्रदेवकुरुत्तरकुरुभ्यः

॥३७॥

पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच भरत, पाँच ऐरावत, देवकुरु तथा  
उत्तरकुरु ये दोनों छोड़कर पाँच विदेह, इस प्रकार अढ़ाई द्वीप  
में कुल पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं।

*Bharata, Airāvata, and Videha* excluding *Devakuru*  
and *Uttarakuru*, are the regions of labour.

नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते ॥३८॥

मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है।

The maximum and the minimum periods of lifetime of human beings are three *palyas* and *antarmuhūrta*.

---

तिर्यग्योनिजानां च ॥३९॥

तिर्यचों की आयु की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी ही (मनुष्यों जितनी) है।

These are the same for the animals.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥

\* \* \*

## अथ चतुर्थोऽध्यायः The Celestial Beings

---

### देवाश्चतुर्णिकायाः ॥१॥

देव चार समूह वाले हैं, अर्थात् देवों के चार भेद हैं -

1. भवनवासी, 2. व्यन्तर, 3. ज्योतिषी, 4 वैमानिक।

The celestial beings are of four orders (classes).

---

### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥२॥

पहिले के तीन निकायों में पीत तक, अर्थात् कृष्ण, नील, कापोत और पीत - ये चार लेश्याएँ होती हैं।

The colouration of thought of the first three classes is up to yellow.

---

### दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥३॥

कल्पोपपन्न (सोलहवें स्वर्ग तक के देव) पर्यन्त इन चार प्रकार के देवों के क्रम से दश, आठ, पाँच और बारह भेद हैं।

They are of ten, eight, five and twelve classes up to the Heavenly beings (*kalpavāsīs*).

---



इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीक-  
प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ॥४॥

ऊपर कहे हुए चार प्रकार के देवों में हर एक के दश भेद हैं:- 1. इन्द्र, 2. सामानिक, 3. त्रायस्त्रिंश, 4. पारिषद्, 5. आत्मरक्ष, 6. लोकपाल, 7. अनीक, 8. प्रकीर्णक, 9. आभियोग्य और 10. किल्बिषिक।

There are ten grades in each of these classes of celestial beings, the Lord (*Indra*), his Equal, the Minister, the courtiers, the bodyguards, the police, the army, the citizens, the servants, and the menials.

---

त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥

ऊपर जो दश भेद कहे हैं उनमें से त्रायस्त्रिंश और लोकपाल - ये भेद व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में नहीं होते अर्थात् उनमें दो भेदों को छोड़कर बाकी के आठ भेद होते हैं।

The Peripatetic and the Stellar devas are without the ministers and the police.

## पूर्वयोर्द्वीन्द्राः ॥६॥

भवनवासी और व्यन्तरों में प्रत्येक भेद में दो-दो इन्द्र होते हैं।

In the first two orders there are two lords.

---

## कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥७॥

ईशान स्वर्ग तक के देव (अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और पहिले तथा दूसरे स्वर्ग के देव) मनुष्यों की भाँति शरीर से काम-सेवन करते हैं।

Up to *Aiṣāna Kalpa* they enjoy copulation.

---

## शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥८॥

शेष स्वर्ग के देव, देवियों के स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनने से और मन के विचारों से काम-सेवन करते हैं।

The others derive pleasure by touch, sight, sound and thought.

---

## परेऽप्रवीचाराः ॥९॥

सोलहवें स्वर्ग से आगे के देव काम-सेवन रहित हैं। (उनके कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उसके प्रतिकार से क्या प्रयोजन?)

The rest are without sexual desire.

---

## भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि- द्वीपदिक्कुमाराः ॥१०॥

भवनवासी देवों के दश भेद हैं:- 1. असुरकुमार,  
2. नागकुमार, 3. विद्युत्कुमार, 4. सुपर्णकुमार,  
5. अग्निकुमार, 6. वातकुमार, 7. स्तनितकुमार,  
8. उदधिकुमार, 9. द्वीपकुमार और 10. दिक्कुमार।

The Residential devas comprise *Asura*, *Nāga*,  
*Vidyut*, *Suparṇa*, *Agni*, *Vāta*, *Stanita*, *Udadhi*,  
*Dvīpa* and *Dikkumāras*.

---

## व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूत- पिशाचाः ॥११॥

व्यन्तर देवों के आठ भेद हैं- 1. किन्नर, 2. किम्पुरुष,  
3. महोरग, 4. गन्धर्व, 5. यक्ष, 6. राक्षस, 7. भूत और  
8. पिशाच।

The Peripatetic devas comprise *Kinnara*,  
*Kimpuruṣa*, *Mahoraga*, *Gandharva*, *Yakṣa*,  
*Rākṣasa*, *Bhūta*, and *Piṣāca* classes.

---

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च  
॥१२॥

ज्योतिषी देवों के पाँच भेद हैं- 1. सूर्य, 2. चन्द्रमा, 3. ग्रह,  
4. नक्षत्र और 5. प्रकीर्णक तारे।

The Stellar (luminary) devas comprise the sun, the  
moon, the planets, the constellations, and the  
scattered stars.

---

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥

ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए  
मनुष्यलोक में हमेशा गमन करते हैं।

In the human region they are characterized by  
incessant motion around *Meru*.

---

**तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥**

घड़ी, घंटा, दिवस, रात इत्यादि व्यवहारकाल का जो विभाग है, वह गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है।

The divisions of time are caused by these.

---

**बहिरवस्थिताः ॥१५॥**

मनुष्यलोक (अढ़ाई द्वीप) के बाहर के ज्योतिषी देव स्थिर हैं।

They are stationary outside.

---

**वैमानिकाः ॥१६॥**

अब वैमानिक देवों का वर्णन प्रारम्भ करते हैं।

The Heavenly beings (*Vaimānikāh*).

---

**कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥**

वैमानिक देवों के दो भेद हैं - 1. कल्पोपपन्न और  
2. कल्पातीत।

Those born in the kalpas<sup>1</sup> and beyond the kalpas.

### उपर्युपरि ॥१८॥

सोलह स्वर्ग के आठ युगल, नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर-ऊपर हैं।

One above the other.

सौधर्मैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तर-  
लान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेष्वानत-  
प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु  
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥१९॥

सौधर्म-ईशान, सानत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर,  
लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्रार इन छह युगलों  
के बारह स्वर्गों में, आनत-प्राणत इन दो स्वर्गों में,  
आरण-अच्युत इन दो स्वर्गों में, नव ग्रैवेयक विमानों में, नव  
अनुदिश विमानों में और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित  
तथा सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव  
रहते हैं।

<sup>1</sup> The kalpas are the habitations of devas from *Saudharma* prior to *Graiveyakas*. Refer to sutra 19 and 23.

In *Saudharma*, *Aiṣāna*, *Sānatkumāra*, *Māhendra*, *Brahma*, *Brahmottara*, *Lāntava*, *Kāpiṣṭha*, *Ṣukra*, *Mahāṣukra*, *Ṣatāra*, *Sahasrāra*, in *Ānata*, *Prāṇata*, *Āraṇa*, *Acyuta*, in *Navagraiveyakas*, in *Vijaya*, *Vaijayanta*, *Jayanta*, *Aparājita* and in *Sarvārthasiddhi* also.

---

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि-  
विषयतोऽधिकाः ॥२०॥

आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या की विशुद्धि, इन्द्रियों का विषय और अवधिज्ञान का विषय - ये सब ऊपर-ऊपर के विमानों में (वैमानिक देवों के) अधिक हैं।

There is increase with regard to the lifetime, power, happiness, brilliance, purity in thought-colouration, capacity of the senses, and range of clairvoyance.

---

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥

गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से ऊपर-ऊपर के वैमानिक देव हीन-हीन होते हैं।

(But) there is decrease with regard to motion, stature, attachment, and pride.

---

**पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥**

दो युगलों में पीत, तीन युगलों में पद्म और बाकी के सब विमानों में शुक्ल-लेश्या होती है।

In two, three and the rest (they are of) yellow, rose (pink) and white thought-complexions.

---

**प्राग्गैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥**

गैवेयकों से पहिले के सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। उनसे आगे के विमान कल्पातीत हैं।

Prior to *Graiveyakas* are the kalpas.

---

**ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥२४॥**

जिनका निवास स्थान पाँचवां स्वर्ग (ब्रह्मलोक) है, उन्हें लौकान्तिक देव कहते हैं।

*Brahmaloka* is the abode of *Laukāntikas*.

---



सारस्वतादित्यवह्नयरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्ठाश्च

॥२५॥

लौकान्तिक देवों के आठ भेद हैं:- 1. सारस्वत, 2. आदित्य, 3. वह्नि, 4. अरुण, 5. गर्दतोय, 6. तुषित, 7. अव्याबाध और 8. अरिष्ट - ये देव ब्रह्मलोक की ईशान इत्यादि आठ दिशाओं में रहते हैं।

They are *Sārasvata, Āditya, Vahni, Aruṇa, Gardatoya, Tuṣita, Avyābādha* and *Ariṣṭa* (groups).

---

विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥

विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और अनुदिश विमानों के अहमिन्द्र द्विचरमा होते हैं अर्थात् मनुष्य के दो जन्म (भव) धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं (ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं)।

In *Vijaya* and the others the devas are of two final births.

---

औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥२७॥

उपपाद जन्म वाले (देव तथा नारकी) और मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी बचे हुए तिर्यञ्च योनि वाले ही हैं।

.....

The beings other than celestial, infernal and human beings are animals.

---

स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां  
सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनमिताः ॥२८॥

भवनवासी देवों में असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार और बाकी के कुमारों की आयु क्रम से एक सागर, तीन पल्य, अढ़ाई पल्य, दो पल्य और डेढ़ पल्य है।

The lifetime of *Asura*, *Nāga*, *Suparṇa*, and *Dvīpa kumāras* and the rest of the Residential devas is one *sāgaropama*, three *palyas*, two and a half *palyas*, two *palyas*, and one and a half *palyas*.

---

सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके ॥२९॥

सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु दो सागर से कुछ अधिक है।

In *Saudharma* and *Aiṣāna Kalpas* the maximum lifetime is a little over two *sāgaropamas*.

---

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥

सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्ग के देवों की आयु सात सागर से कुछ अधिक है।

In *Sānatkumāra* and *Māhendra* seven.

त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ॥३१॥

पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु (सात सागर) से क्रमपूर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारह, तेरह और पन्द्रह सागर अधिक आयु (उसके बाद के स्वर्गों में) है।

But more by three, seven, nine, eleven, thirteen and fifteen.

आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु  
सर्वार्थसिद्धौ च ॥३२॥

आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के नव ग्रैवेयकों में, नव अनुदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार्थसिद्धि विमानों में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है।

Above *Āraṇa* and *Acyuta*, in *Navagraiveyakas*, *Vijaya*, etc. and *Sarvārthasiddhi*, it is more and more by one *sāgara*.

### अपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥

सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक है।

The minimum is a little over one *palyopama*.

---

### परतः परतः पूर्वापूर्वाऽनन्तराः ॥३४॥

जो पहिले-पहिले के युगलों की उत्कृष्ट आयु है वह पीछे-पीछे के युगलों की जघन्य आयु होती है।

The maximum of the immediately preceding is the minimum of the next one (kalpa).

---

### नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥

दूसरे इत्यादि नरक के नारकियों की जघन्य आयु भी देवों की जघन्य आयु के समान है - अर्थात् जो पहिले नरक की उत्कृष्ट आयु है वही दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इस प्रकार आगे के नरकों में भी जघन्य आयु जानना चाहिये।

The same with regard to infernal beings from the second infernal region onwards.

---

## दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥

पहिले नरक के नारकियों की जघन्य आयु दस हजार वर्ष की है। (नारकियों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन तीसरे अध्याय के छठवें सूत्र में किया है।)

Ten thousand years in the first.

---

## भवनेषु च ॥३७॥

भवनवासी देवों की जघन्य आयु दस हजार वर्ष की है।

In the Residential regions also.

---

## व्यन्तराणां च ॥३८॥

व्यन्तर देवों की भी जघन्य आयु दस हजार वर्ष की है।

Of the Peripatetic also.

---

## परा पल्योपममधिकम् ॥३९॥

व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम से कुछ अधिक है।

The maximum is a little over one *palyopama*.

---

## ज्योतिष्काणां च ॥४०॥

ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम से कुछ अधिक है।

Of the Stellar devas<sup>2</sup> also.

## तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥

ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु एक पल्योपम के आठवें भाग है।

The minimum is one-eighth of it.

## लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥४२॥

समस्त लौकान्तिक देवों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु आठ सागर की है।

Eight *sāgaropamas* for all *Laukāntikas*.

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥



<sup>2</sup> The Stellar celestials include the planets also. Refer to sutra 12.

अथ पञ्चमोऽध्यायः  
The Category of the Non-Living

---

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

[ धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ] धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल ये चार [ अजीवकायाः ] अजीव तथा बहु प्रदेशी हैं।

The non-soul substances (bodies) are the medium of motion, the medium of rest, space and matter.

---

द्रव्याणि ॥२॥

ये चार पदार्थ [ द्रव्याणि ] द्रव्य हैं।

These (four) are substances (*dravyas*).

---

जीवाश्च ॥३॥

[ जीवाः ] जीव [ च ] भी द्रव्य है।

The souls also (are substances).

---

## नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥

ऊपर कहे गये द्रव्यों में से चार द्रव्य [ अरूपाणि ] रूप रहित [ नित्यावस्थितानि ] नित्य और अवस्थित हैं।

(The substances are) eternal, fixed in number and colourless (non-material).

---

## रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥

[ पुद्गलाः ] पुद्गल द्रव्य [ रूपिणः ] रूपी अर्थात् मूर्तिक हैं।

Things which have form constitute matter (*pudgalas*).

---

## आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥

[ आ आकाशात् ] आकाश पर्यन्त [ एकद्रव्याणि ] एक एक द्रव्य हैं अर्थात् धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं।

The substances (mentioned in the first sutra) up to space are indivisible wholes (i.e. each is one single continuum).

---



## निष्क्रियाणि च ॥७॥

[ च ] और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य [ निष्क्रियाणि ] क्रिया रहित हैं अर्थात् ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते।

These three (the medium of motion, the medium of rest, and space) are also without activity (movement).

---

## असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥८॥

[ धर्माधर्मैकजीवानाम् ] धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के [ असंख्येयाः ] असंख्यात [ प्रदेशाः ] प्रदेश हैं।

There are innumerable points of space in the medium of motion, the medium of rest, and in each individual soul.

---

## आकाशस्यानन्ताः ॥९॥

[ आकाशस्य ] आकाश के [ अनन्ताः ] अनन्त प्रदेश हैं।

The units of space are infinite.

---

संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥१०॥

[ पुद्गलानाम् ] पुद्गलों के [ संख्येयासंख्येयाः च ] संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं।

(The space-points) of forms of matter are numerable and innumerable also.

---

नाणोः ॥११॥

[ अणोः ] पुद्गल परमाणु के [ न ] दो इत्यादि प्रदेश नहीं हैं अर्थात् एक प्रदेशी है।

(There are) no space-points for the atom (indivisible unit of matter).

---

लोकाकाशेऽवगाहः ॥१२॥

[ अवगाहः ] उपरोक्त समस्त द्रव्यों का अवगाह (स्थान) [ लोकाकाशे ] लोकाकाश में है।

(These substances – the media of motion and rest, the souls and the forms of matter) are located in the space of the universe.

## धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३॥

[ धर्माधर्मयोः ] धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह [ कृत्स्ने ] तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है।

The media of motion and rest pervade the entire universe-space.

---

## एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥

[ पुद्गलानाम् ] पुद्गल द्रव्य का अवगाह [ एक प्रदेशादिषु ] लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्यन्त [ भाज्यः ] विभाग करने योग्य है - जानने योग्य है।

The forms of matter occupy (inhabit) from one unit of space onwards.

---

## असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥१५॥

[ जीवानाम् ] जीवों का अवगाह [ असंख्येयभागादिषु ] लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है।

The souls inhabit from one of innumerable parts of the universe-space.

---

## प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

[ प्रदीपवत् ] दीप के प्रकाश की भांति  
[ प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां ] प्रदेशों के संकोच और विस्तार के  
द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातादिक भागों में रहता है।

(It is possible) by the contraction and expansion of  
the space-points (of a soul) as in the case of the  
light of a lamp.

## गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥१७॥

[ गतिस्थित्युपग्रहौ ] स्वयमेव गमन तथा स्थिति को प्राप्त हुए  
जीव और पुद्गलों के गमन तथा ठहरने में जो सहायक है सो  
[ धर्माधर्मयोः उपकारः ] क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का  
उपकार है।

The functions of the media of motion and rest are  
to assist motion and rest respectively.

## आकाशस्यावगाहः ॥१८॥

[ अवगाहः ] समस्त द्रव्यों को अवकाश-स्थान देना यह  
[ आकाशस्य ] आकाश का उपकार है।

(The function) of space (is to) provide  
accommodation.

## शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१९॥

[ शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः ] शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास ये [ पुद्गलानाम् ] पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं अर्थात् शरीरादि की रचना पुद्गल से ही होती है।

(The function) of matter (is to form the basis) of the body and the organs of speech and mind and respiration.

---

## सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥२०॥

[ सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ] इन्द्रियजन्य सुख-दुःख, जीवन-मरण ये भी पुद्गल के उपकार हैं।

(The function of matter is) also to contribute to pleasure, suffering, life and death of living beings.

---

## परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥

[ जीवानाम् ] जीवों के [ परस्परोपग्रहः ] परस्पर में उपकार हैं।

(The function) of souls is to help one another.

---

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥

[ वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च ] वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व [ कालस्य ] काल द्रव्य के उपकार हैं।

Assisting substances in their continuity of being (through gradual changes), in their modifications, in their movements and in their priority and non-priority in time, are the functions of time.

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥२३॥

[ स्पर्श रस गन्ध वर्णवन्तः ] स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले [ पुद्गलाः ] पुद्गल द्रव्य हैं।

The forms of matter are characterized by touch, taste, smell and colour.

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायाऽऽतपोद्योत-  
वन्तश्च ॥२४॥

उक्त लक्षणवाले पुद्गल [ शब्द बन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छायाऽऽतपोद्योतवन्तः च ] शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योतादि वाले होते हैं, अर्थात् ये भी पुद्गल की पर्यायें हैं।

Sound, union, fineness, grossness, shape, division, darkness, image, warm light (sunshine), and cool light (moonlight) also (are forms of matter).

---

### अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥

पुद्गल द्रव्य [ अणवः स्कन्धाः च ] अणु और स्कन्ध के भेद से दो प्रकार के हैं।

Atoms and molecules (are the two main divisions of matter).

---

### भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥२६॥

परमाणुओं के [ भेदसङ्घातेभ्य ] भेद (अलग होने से) सङ्घात (मिलने से) अथवा भेद सङ्घात दोनों से [ उत्पद्यन्ते ] पुद्गल स्कन्धों की उत्पत्ति होती है।

(Molecules) are formed by division (fission), union (fusion), and division-cum-union.

---

### भेदादणुः ॥२७॥

[ अणुः ] अणु की उत्पत्ति [ भेदात् ] भेद से होती है।

The atom (is produced only) by division (fission).

---

## भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः ॥२८॥

[ चाक्षुषः ] चक्षु इन्द्रिय से देखने योग्य स्कन्ध

[ भेदसङ्घाताभ्याम् ] भेद और सङ्घात दोनों के एकत्र रूप होने से उत्पन्न होता है, अकेले भेद से नहीं।

(Molecules produced) by the combined action of division (fission) and union (fusion) can be perceived by the eyes.

---

## सत् द्रव्यलक्षणम् ॥२९॥

[ द्रव्यलक्षणम् ] द्रव्य का लक्षण [ सत् ] सत् (अस्तित्व) है।

Existence (being or *sat*) is the differentia of a substance.

---

## उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥३०॥

[ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं ] जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सहित हो [ सत् ] सो सत् है।

Existence is characterized by origination, disappearance (destruction) and permanence.

---



### तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥३१॥

[ तद्भावाव्ययं ] तद्भाव से जो अव्यय है - नाश नहीं होता सो [ नित्यम् ] नित्य है।

Permanence is indestructibility of the essential nature (quality) of the substance<sup>1</sup>.

---

### अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥३२॥

[ अर्पितानर्पितसिद्धेः ] प्रधानता और गौणता से पदार्थों की सिद्धि होती है।

(The contradictory characteristics are established) from different points of view.

---

### स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः ॥३३॥

[ स्निग्धरूक्षत्वात् ] चिकने और रूखे के कारण [ बन्धः ] दो, तीन इत्यादि परमाणुओं का बन्ध होता है।

Combination of atoms takes place by virtue of greasy (sticky) and dry (rough) properties associated with them.

---

<sup>1</sup> Permanence is the existence of the past nature in the present.

## न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥

[ जघन्यगुणानाम् ] जघन्य गुण सहित परमाणुओं का [ न ] बन्ध नहीं होता।

(There is) no combination between the lowest degrees of the two properties.

## गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥३५॥

[ गुणसाम्ये ] गुणों की समानता हो तब [ सदृशानाम् ] समान जाति वाले परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता। जैसे कि - दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता अथवा जैसे स्निग्ध परमाणु का उतने ही गुण वाले रूक्ष परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता। न - (बन्ध नहीं होता) यह शब्द इस सूत्र में नहीं कहा परन्तु ऊपर के सूत्र में कहा गया 'न' शब्द इस सूत्र में भी लागू होता है।

(There is no combination) between equal degrees of the same property.

## द्व्यधिकादिगुणानां तु ॥३६॥

[ द्व्यधिकादिगुणानां तु ] दो अधिक गुण हों इस तरह के गुण वाले के साथ ही बन्ध होता है।

But (there is combination) between degrees different by two units.

---

### बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥३७॥

[ च ] और [ बन्धे ] बन्धरूप अवस्था में [ अधिकौ ] अधिक गुण वाले के परमाणुओं जितने गुण रूप में [ पारिणामिकौ ] ( कम गुण वाले परमाणुओं का ) परिणामन होता है। ( यह कथन निमित्त का है। )

In the process of combination the higher degrees transform the lower ones.

---

### गुणपर्ययवत् द्रव्यम् ॥३८॥

[ गुणपर्ययवत् ] गुण-पर्याय वाला [ द्रव्यम् ] द्रव्य है।

That which has qualities and modes is a substance.

---

### कालश्च ॥३९॥

[ कालः ] काल [ च ] भी द्रव्य है।

Time also (is a substance).

---

## सोऽनन्तसमयः ॥४०॥

[ सः ] वह काल द्रव्य [ अनन्त समयः ] अनन्त समय वाला है। काल की पर्याय यह समय है। यद्यपि वर्तमानकाल एक समयमात्र ही है तथापि भूत-भविष्य की अपेक्षा से उसके अनन्त समय हैं।

It (conventional time) consists of infinite instants.

## द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥४१॥

[ द्रव्याश्रया ] जो द्रव्य के आश्रय से हों और [ निर्गुणा ] स्वयं दूसरे गुणों से रहित हों [ गुणाः ] वे गुण हैं।

Those, which have substance as their substratum and which are not themselves the substratum of other attributes, are qualities.

## तद्भावः परिणामः ॥४२॥

[ तद्भावः ] जो द्रव्य का स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) है [ परिणामः ] सो परिणाम है।

The condition (change) of a substance is a mode.

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥



अथ षष्ठोऽध्यायः  
Influx of Karma

---

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥

[ कायवाङ्मनः कर्म ] शरीर, वचन और मन के अवलम्बन से आत्मा के प्रदेशों का संकल्प होना सो [ योगः ] योग है।

The action of the body, the organ of speech and the mind is called *yoga* (activity).

---

स आस्रवः ॥२॥

[ सः ] वह योग [ आस्रवः ] आस्रव है।

It (this threefold activity) is influx (*āsra*va).

---

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥

[ शुभः ] शुभ योग [ पुण्यस्य ] पुण्य कर्म के आस्रव में कारण है और [ अशुभः ] अशुभ योग [ पापस्य ] पाप कर्म के आस्रव में कारण है।

Virtuous activity is the cause of merit (*puṇya*) and wicked activity is the cause of demerit (*pāpa*).

---

**सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥४॥**

[ सकषायस्य साम्परायिकस्य ] कषायसहित जीव के संसार के कारणरूप कर्म का आस्रव होता है और [ अकषायस्य ईर्यापथस्य ] कषायरहित जीव के स्थितिरहित कर्म का आस्रव होता है।

(There are two kinds of influx, namely) that of persons with passions, which extends transmigration, and that of persons free from passions, which prevents or shortens it.

**इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः  
पूर्वस्य भेदाः ॥५॥**

[ इन्द्रियाणि पञ्च ] स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियाँ, [ कषायाः चतुः ] क्रोधादि चार कषाय, [ अव्रतानि पञ्च ] हिंसा इत्यादि पाँच अव्रत और [ क्रियाः पञ्चविंशति ] सम्यक्त्व आदि पच्चीस प्रकार की क्रियायें [ संख्याः भेदाः ] इस प्रकार कुल 39 भेद [ पूर्वस्य ] पहले (साम्परायिक) आस्रव के हैं, अर्थात् इन सर्व भेदों के द्वारा साम्परायिक आस्रव होता है।

The subdivisions of the former are the five senses, the four passions, non-observance of the five vows and twenty-five activities.<sup>1</sup>

---

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः

॥६॥

[ तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरण-वीर्य-विशेषेभ्यः ]

तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरणविशेष और वीर्यविशेष से [ तद्विशेषः ] आस्रव में विशेषता-हीनाधिकता होती है।

Influx is differentiated on the basis of intensity or feebleness of thought-activity, intentional or unintentional nature of action, the substratum and its peculiar potency.

---

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥७॥

[ अधिकरणं ] अधिकरण [ जीवाजीवाः ] जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य ऐसे दो भेदरूप हैं; इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आत्मा में जो कर्मास्रव होता है उसमें दो प्रकार का निमित्त होता है; एक जीव निमित्त और दूसरा अजीव निमित्त।

---

<sup>1</sup> A literal meaning of the text would read as follows: 'The subdivisions of the former are senses, the passions, the non-observance of the vows and the activities, which are of five, four, five and twenty-five kinds respectively.'

The living and the non-living constitute the substrata.

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषाय-  
विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥८॥

[ आद्यं ] पहला अर्थात् जीव अधिकरण-आस्रव  
[ संरम्भसमारम्भारम्भयोग, कृतकारितानुमतकषायविशेषैः  
च ] संरम्भ-समारम्भ-आरम्भ, मन-वचन-कायरूप तीन योग,  
कृत-कारित-अनुमोदना तथा क्रोधादि चार कषायों की  
विशेषता से [ त्रिः त्रिः त्रिः चतुः ]  $3 \times 3 \times 3 \times 4$   
[ एकशः ] 108 भेदरूप है।

The substratum of the living is of 108 kinds.<sup>2</sup>

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥९॥

[ परम् ] दूसरा अजीवाधिकरण आस्रव [ निर्वर्तना द्वि ] दो  
प्रकार की निर्वर्तना, [ निक्षेप चतुः ] चार प्रकार के निक्षेप  
[ संयोग द्वि ] दो प्रकार के संयोग और [ निसर्गा त्रिभेदाः ]  
तीन प्रकार के निसर्ग ऐसे कुल 11 भेदरूप है।

<sup>2</sup> *Literal version.* The substratum of the living is planning to commit violence, preparation for it, and commencement of it, by activity, doing, causing it done, and approval of it, and issuing from the passions, which are three, three, three, and four respectively.



Production, placing, combining and urging are the substratum of the non-living.

---

तत्प्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता  
ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

[ तत्प्रदोष निह्वव मात्सर्यान्तरायासादनोपघाताः ] ज्ञान और दर्शन के सम्बन्ध में करने में आये हुये प्रदोष, निह्वव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन और उपघात ये

[ ज्ञानदर्शनावरणयोः ] ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्मास्त्रव के कारण हैं।

Spite against knowledge, concealment of knowledge, non-imparting of knowledge out of envy, causing impediment to acquisition of knowledge, disregard of knowledge, and disparagement of true knowledge, lead to the influx of karmas which obscure knowledge and perception.

---

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभय-  
स्थानान्यसद्वेद्यस्य ॥११॥

[ आत्मपरोभयस्थानानि ] अपने में, पर में और दोनों के विषय में स्थित [ दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि ] दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये [ असद्वेद्यस्य ] असातावेदनीय कर्म के आस्रव के कारण हैं।

Suffering, sorrow, agony, moaning, injury, and lamentation, in oneself, in others, or in both, lead to the influx of karmas which cause unpleasant feeling.

---

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः  
शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥१२॥

[ भूतव्रत्यनुकम्पा ] प्राणियों के प्रति और व्रतधारियों के प्रति अनुकम्पा-दया, [ दानसरागसंयमादियोगः ] दान, सराग संयमादि के योग, [ क्षान्तिः शौचमिति ] क्षमा और शौच, अर्हन्त भक्ति इत्यादि [ सद्वेद्यस्य ] सातावेदनीय कर्म के आस्रव के कारण हैं।

Compassion towards living beings in general and the devout in particular, charity, asceticism with attachment etc. (i.e. restraint-cum-non-restraint, involuntary dissociation of karmas without effort, austerities not based on right knowledge), contemplation, equanimity, freedom from greed – these lead to the influx of karmas that cause pleasant feeling.

केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

[ केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादः ] केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद करना सो [ दर्शनमोहस्य ] दर्शनमोहनीय कर्म के आस्रव का कारण है।

Attributing faults to the omniscient, the scriptures, the congregation of ascetics, the true religion, and the celestial beings, leads to the influx of faith-deluding karmas.

---

कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

[ कषायोदयात् ] कषाय के उदय से [ तीव्रपरिणामः ] तीव्र परिणाम होना सो [ चारित्रमोहस्य ] चारित्र मोहनीय के आस्रव का कारण है।

Intense feelings induced by the rise of the passions cause the influx of the conduct-deluding karmas.

---

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥

[ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं ] बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह होना सो [ नारकस्यायुषः ] नरकायु के आस्रव का कारण है।

Excessive infliction of pain, and attachment cause the influx of karma which leads to life in the infernal regions.

---

### माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥

[ माया ] माया-छलकपट [ तैर्यग्योनस्य ] तिर्यचायु के आस्रव का कारण है।

Deceitfulness causes the influx of life-karma leading to the animal and vegetable world.

---

### अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥१७॥

[ अल्पारम्भपरिग्रहत्वं ] थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रहण  
[ मानुषस्य ] मनुष्य-आयु के आस्रव का कारण हैं।

Slight injury and slight attachment cause the influx of life-karma that leads to human life.

---

### स्वभावमार्दवं च ॥१८॥

[ स्वभावमार्दवं ] स्वभाव से ही सरल परिणाम होना [ च ] भी मनुष्यायु के आस्रव का कारण है।

Natural mildness also (leads to the same influx).

---

## निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥

[ निःशीलव्रतत्वं च ] शील और व्रत का जो अभाव है वह भी [ सर्वेषाम् ] सभी प्रकार की आयु के आस्रव का कारण है।

Non-observance of the supplementary vows, vows, etc. causes the influx of life-karmas leading to birth among all the four kinds of beings (conditions of existence).

---

## सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

[ सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि ] सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप [ दैवस्य ] ये देवायु के आस्रव के कारण हैं।

Restraint with attachment, restraint-cum-non-restraint, involuntary dissociation of karmas, and austerities accompanied by perverted faith, cause the influx of life-karma leading to celestial birth.

---

## सम्यक्त्वं च ॥२१॥

[ सम्यक्त्वं च ] सम्यग्दर्शन भी देवायु के आस्रव का कारण है अर्थात् सम्यग्दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायु के आस्रव का कारण है।

Right belief also (is the cause of influx of life-karma leading to celestial birth).

---

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥

[ योगवक्रता ] योग में कुटिलता [ विसंवादनं च ] और विसंवादन अर्थात् अन्यथा प्रवर्तन [ अशुभस्य नाम्नः ] अशुभ नामकर्म के आस्रव का कारण हैं।

Crooked activities and deception cause the influx of inauspicious physique-making karmas.

---

तद्विपरीतं शुभस्य ॥२३॥

[ तद्विपरीतं ] उससे अर्थात् अशुभ नामकर्म के आस्रव के जो कारण कहे उनसे विपरीत भाव [ शुभस्य ] शुभ नामकर्म के आस्रव का कारण हैं।

The opposites of these (namely straightforward activity, and honesty or candour) cause the influx of auspicious physique-making karmas.

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारो-  
ऽभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी  
साधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन-  
भक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावना  
प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥

[ दर्शनविशुद्धिः ] 1- दर्शनविशुद्धि, [ विनयसम्पन्नता ]  
2- विनयसम्पन्नता, [ शीलव्रतेष्वनतीचारः ] 3- शील और  
व्रतों में अनतिचार अर्थात् अतिचार का न होना,  
[ अभीक्षणज्ञानोपयोगः ] 4- निरन्तर ज्ञानोपयोग, [ संवेगः ]  
5- संवेग अर्थात् संसार से भयभीत होना,  
[ शक्तितस्त्यागतपसी ] 6-7- शक्ति के अनुसार त्याग तथा  
तप करना, [ साधुसमाधिः ] 8- साधुसमाधि,  
[ वैयावृत्यकरणम् ] 9- वैयावृत्य करना,  
[ अर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः ] 10-13- अर्हत्-  
आचार्य-बहुश्रुत (उपाध्याय) और प्रवचन (शास्त्र) के प्रति  
भक्ति करना, [ आवश्यकपरिहाणिः ] 14- आवश्यक में  
हानि न करना, [ मार्गप्रभावना ] 15- मार्ग प्रभावना और  
[ प्रवचनवत्सलत्वम् ] 16- प्रवचन-वात्सल्य [ इति  
तीर्थकरत्वस्य ] ये सोलह भावना तीर्थकर-नामकर्म के आस्रव  
का कारण हैं।

The influx of *Tīrthamkara* name-karma is caused by these sixteen observances, namely, purity of right faith, reverence, observance of vows and supplementary vows without transgressions, ceaseless pursuit of knowledge, perpetual fear of the cycle of existence, giving gifts (charity), practising austerities according to one's capacity, removal of obstacles that threaten the equanimity of ascetics, serving the meritorious by warding off evil or suffering, devotion to omniscient lords, chief preceptors, preceptors, and the scriptures, practice of the six essential daily duties, propagation of the teachings of the omniscient, and fervent affection for one's brethren following the same path.

---

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्धावने च  
नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥

[ परात्मनिन्दाप्रशंसे ] दूसरे की निन्दा और अपनी प्रशंसा करना  
[ सदसद्गुणोच्छादनोद्धावने च ] तथा प्रगट गुणों को छिपाना  
और अप्रगट गुणों को प्रसिद्ध करना सो [ नीचैर्गोत्रस्य ] नीच  
गोत्रकर्म के आस्रव का कारण हैं।

Censuring others and praising oneself, concealing good qualities present in others and proclaiming noble qualities absent in oneself, cause the influx of karmas which lead to low status.



## तद्विपर्ययौ नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

[ तद्विपर्ययः ] उस नीच गोत्रकर्म के आस्रव के कारणों से विपरीत अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिंदा इत्यादि [ च ] तथा [ नोचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ ] नम्र वृत्ति होना तथा मद का अभाव - सो [ उत्तरस्य ] दूसरे गोत्रकर्म अर्थात् उच्च गोत्रकर्म के आस्रव का कारण हैं।

The opposites of those mentioned in the previous sutra, and humility and modesty, cause the influx of karmas which determine high status.

---

## विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥२७॥

[ विघ्नकरणम् ] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्न करना सो [ अन्तरायस्य ] अन्तराय कर्म के आस्रव का कारण हैं।

Laying an obstacle is the cause of the influx of obstructive karmas.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥

\* \* \*

## अथ सप्तमोऽध्यायः The Five Vows

---

हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥१॥

[ हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः ] हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह अर्थात् पदार्थों के प्रति ममत्वरूप परिणमन - इन पाँच पापों से (बुद्धिपूर्वक) निवृत्त होना सो [ व्रतम् ] व्रत है।

Desisting from injury, falsehood, stealing, unchastity, and attachment, is the (fivefold) vow.

---

देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

व्रत के दो भेद हैं - [ देशतः अणुः ] उपरोक्त हिंसादि पापों का एकदेश त्याग करना सो अणुव्रत और [ सर्वतः महती ] सर्वदेश त्याग करना सो महाव्रत है।

(The vow is of two kinds), small and great, from its being partial and complete.

---

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥३॥

[ तत्स्थैर्यार्थं ] उन व्रतों की स्थिरता के लिये [ भावनाः पञ्च पञ्च ] प्रत्येक व्रत की पाँच-पाँच भावनायें हैं।  
किसी वस्तु का बार बार विचार करना सो भावना है।

For the sake of strengthening the vows, there are five observances<sup>1</sup> for each of these.

---

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपान-  
भोजनानि पञ्च ॥४॥

[ वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि ]  
वचनगुप्ति- वचन को रोकना, मनगुप्ति- मन की प्रवृत्ति को रोकना, ईर्या समिति- चार हाथ जमीन देखकर चलना, आदाननिक्षेपण समिति- जीवरहित भूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तु को उठाना धरना और आलोकितपानभोजन-देखकर-शोधकर, भोजन-पानी ग्रहण करना [ पञ्च ] ये पाँच अहिंसा व्रत की भावनायें हैं।

Control of speech, control of thought, regulation of movement, care in taking and placing things or objects, and examining food or drink, are five.

---

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं  
च पञ्च ॥५॥

---

<sup>1</sup> *Bhāvanā* is generally rendered as contemplation or meditation. But from what follows 'observance' may be taken as a better rendering.

[ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानानि ] क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान अर्थात् क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भय का त्याग करना, हास्य का त्याग करना [ अनुवीचिभाषणं च ] और शास्त्र की आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना [ पञ्च ] ये पाँच सत्यव्रत की भावनायें हैं।

Giving up anger, greed, cowardice or fearfulness, and jest, and speaking harmless words are five.

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धि-  
सधर्माविसंवादाः पञ्च ॥६॥

[ शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धि-  
सधर्माविसंवादाः ] शून्यागारवास- पर्वतों की गुफा, वृक्ष की पोल इत्यादि निर्जन स्थानों में रहना, विमोचितावास- दूसरों के द्वारा छोड़े गये स्थान में निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरों को न हटाना तथा यदि कोई अपने स्थान में आवे तो उसे न रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षा की शुद्धि रखना और साधर्मियों के साथ यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा क्लेश न करना [ पञ्च ] ये पाँच अचौर्यव्रत की भावनायें हैं।

Residence in a solitary place, residence in a deserted habitation, causing no hindrance to others, acceptance of clean food, and not quarrelling with brother monks, are five.

---

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-  
वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥७॥

[ स्त्रीरागकथाश्रवणत्यागः ] स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, [ तन्मनोहरांगनिरीक्षणत्यागः ] उनके मनोहर अंगों को निरखकर देखने का त्याग, [ पूर्वरतानुस्मरणत्यागः ] अव्रत अवस्था में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग, [ वृष्येष्टरसत्यागः ] कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग और [ स्वशरीरसंस्कारत्यागः ] अपने शरीर के संस्कारों का त्याग [ पञ्च ] ये पाँच ब्रह्मचर्य व्रत की भावनायें हैं।

Giving up listening to stories that excite attachment for women, looking at the beautiful bodies of women, recalling former sexual pleasure, delicacies stimulating amorous desire, and adornment of the body, constitutes five.

---

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥८॥

[ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरगद्वेषवर्जनानि ] स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियों के इष्ट-अनिष्ट विषयों के प्रति राग-द्वेष का त्याग करना [ पञ्च ] सो पाँच परिग्रहत्यागव्रत की भावनायें हैं।

Giving up attachment and aversion for agreeable and disagreeable objects of the five senses constitutes five.

---

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥९॥

[ हिंसादिषु ] हिंसा आदि पाँच पापों से [ इह अमुत्र ] इस लोक में तथा परलोक में [ अपायावद्यदर्शनम् ] नाश की (दुःख, आपत्ति, भय तथा निन्द्यगति की) प्राप्ति होती है - ऐसा बारम्बार चिन्तवन करना चाहिये।

The consequences of violence etc. are calamity and reproach in this world and in the next.

---

दुःखमेव वा ॥१०॥

[ वा ] अथवा ये हिंसादिक पाँच पाप [ दुःखमेव ] दुःखरूप ही हैं - ऐसा विचारना।

Or sufferings only (result from injury etc.).

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिक-  
क्लिश्यमानाविनेयेषु ॥११॥

[ सत्त्वेषु मैत्री ] प्राणीमात्र के प्रति निर्वैर बुद्धि [ गुणाधिकेषु प्रमोदं ] अधिक गुणवानों के प्रति प्रमोद (हर्ष)

[ क्लिश्यमानेषु कारुण्यं ] दुःखी-रोगी जीवों के प्रति करुणा और [ अविनेयेषु माध्यस्थं ] हठाग्रही मिथ्यादृष्टि जीवों के प्रति माध्यस्थ भावना - ये चार भावना अहिंसादि पाँच व्रतों की स्थिरता के लिये बारम्बार चिन्तवन करने योग्य हैं।

Benevolence towards all living beings, joy at the sight of the virtuous, compassion and sympathy for the afflicted, and tolerance towards the insolent and ill-behaved.

---

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

[ संवेगवैराग्यार्थम् ] संवेग अर्थात् संसार का भय और वैराग्य अर्थात् राग-द्वेष का अभाव करने के लिये

[ जगत्कायस्वभावौ वा ] क्रम से संसार और शरीर के स्वभाव का चिन्तवन करना चाहिये।

Or the nature of mundane existence (the universe) and the body (may also be contemplated) in order to cultivate awe at the misery of worldly existence and detachment to worldly things.

---

## प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥१३॥

[ प्रमत्तयोगात् ] कषाय-राग-द्वेष अर्थात् अयत्नाचार (असावधानी-प्रमाद) के सम्बन्ध से अथवा प्रमादी जीव के मन-वचन-काय योग से [ प्राणव्यपरोपणं ] जीव के भाव-प्राण का, द्रव्य-प्राण का अथवा इन दोनों का वियोग करना सो [ हिंसा ] हिंसा है।

The severance of vitalities out of passion is injury.

---

## असदभिधानमनृतम् ॥१४॥

प्रमाद के योग से [ असदभिधानं ] जीवों को दुःखदायक अथवा मिथ्यारूप वचन बोलना सो [ अनृतम् ] असत्य है।

Speaking what is not commendable is falsehood.

---

## अदत्तादानं स्तेयम् ॥१५॥

प्रमाद के योग से [ अदत्तादानं ] बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना सो [ स्तेयम् ] चोरी है।

Taking anything that is not given is stealing.

---



## मैथुनमब्रह्म ॥१६॥

[ मैथुनमब्रह्म ] जो मैथुन है सो अब्रह्म अर्थात् कुशील है।

Copulation is unchastity.

---

## मूर्च्छा परिग्रहः ॥१७॥

[ मूर्च्छा परिग्रहः ] जो मूर्च्छा है सो परिग्रह है।

Infatuation is attachment to possessions.

---

## निःशल्यो व्रती ॥१८॥

[ व्रती ] व्रती जीव [ निःशल्यः ] शल्य रहित ही होता है।

The votary is free from stings.

---

## अगार्यनगारश्च ॥१९॥

[ अगारी ] अगारी अर्थात् सागार (गृहस्थ) [ अनगारः च ]  
और अनगार (गृहत्यागी भावमुनि) इस प्रकार व्रती के दो भेद  
हैं।

नोट- निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक महाव्रतों को पालने वाले  
मुनि अनगारी कहलाते हैं और देशव्रत को पालने वाले श्रावक  
सागारी कहलाते हैं।

The householder and the homeless ascetic are the two kinds of votaries.

---

### अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

[ अणुव्रतः ] अणुव्रत अर्थात् एकदेश व्रत पालनेवाले सम्यग्दृष्टि जीव [ अगारी ] सागार कहे जाते हैं।

One who observes the small vows is a householder.

---

### दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोग- परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्च ॥२१॥

[ च ] और फिर वे व्रत [ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक-  
प्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभाग-  
व्रतसंपन्नः ] दिग्व्रत, देशव्रत तथा अनर्थदण्डव्रत ये तीन गुणव्रत और सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग-परिभोग परिमाण (मर्यादा) तथा अतिथिसंविभागव्रत ये चार शिक्षाव्रत सहित होते हैं अर्थात् व्रतधारी श्रावक पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन बारह व्रतों सहित होता है।

Abstaining from activity with regard to directions, country, and purposeless sin, periodical concentration, fasting at regular intervals, limiting consumable and non-consumable things, and partaking of one's food after feeding an ascetic, are the minor or supplementary vows.

---

### मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

व्रतधारी श्रावक [ मारणान्तिकीं ] मरण के समय होने वाली [ सल्लेखनां ] सल्लेखना को [ जोषिता ] प्रीतिपूर्वक सेवन करें।

The householder courts voluntary death at the end of his life.

---

### शंकाकांक्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥२३॥

[ शंकाकांक्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः ] शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि की प्रशंसा और अन्यदृष्टि का संस्तव - ये पाँच [ सम्यग्दृष्टेः अतिचाराः ] सम्यग्दर्शन के अतिचार हैं।

Doubt in the teachings of the Jina, desire for worldly enjoyment, repugnance or disgust at the afflicted, admiration for the knowledge and conduct of the wrong believer, and praise of wrong believers, are the five transgressions of the right believer.

---

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥२४॥

[ व्रतशीलेषु ] व्रत और शीलों में भी [ यथाक्रमं ] अनुक्रम से प्रत्येक में [ पञ्च पञ्च ] पाँच-पाँच अतिचार हैं।

There are five, five transgressions respectively for the vows and the supplementary vows.

---

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥

[ बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ] बन्ध, वध, छेद, अधिक भार लादना और अन्न-पान का निरोध करना - ये पाँच अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं।

Binding, beating, mutilating limbs, overloading, and withholding food and drink.

---

**मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-  
साकारमन्त्रभेदाः ॥२६॥**

[ मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-  
साकारमन्त्रभेदाः ] मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान,  
कूटलेखाक्रिया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद - ये पाँच  
सत्याणुव्रत के अतिचार हैं।

Perverted teaching, divulging what is done in  
secret, forgery, misappropriation, and proclaiming  
others' thoughts.

---

**स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक-  
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥**

चोरी के लिये चोर को प्रेरणा करना या उसका उपाय बताना,  
चोर से चुराई हुई वस्तु खरीदना, राज्य की आज्ञा के विरुद्ध  
चलना, देने-लेने के बाँट तराजू आदि कम-ज्यादा रखना और  
कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाकर असली भाव  
से बेचना - ये अचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं।

Prompting others to steal, receiving stolen goods,  
under-buying in a disordered state, using false  
weights and measures, and deceiving others with  
artificial or imitation goods.

---

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीता-  
गमनानंगक्रीडाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥२८॥

दूसरे के पुत्र-पुत्रियों का विवाह करना-कराना, पति-सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना-जाना, लेन-देन रखना, रागभाव पूर्वक बात-चीत करना, पति-रहित व्यभिचारिणी स्त्री (वेश्यादि) के यहाँ आना-जाना, लेन-देन आदि का व्यवहार रखना, अनंगक्रीडा अर्थात् कामसेवन के लिये निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से कामसेवन करना और कामसेवन की तीव्र अभिलाषा - ये पाँच ब्रह्मचर्या जुव्रत के अतिचार हैं।

Bringing about marriage, intercourse with an unchaste married woman, cohabitation with a harlot, perverted sexual practices, and excessive sexual passion.

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्य-  
प्रमाणातिक्रमाः ॥२९॥

[ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमाः ] क्षेत्र और रहने के स्थान के परिमाण का उल्लंघन करना, [ हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमाः ] चाँदी और सोने के परिमाण का उल्लंघन करना,  
[ धनधान्यप्रमाणातिक्रमाः ] धन (पशु आदि) तथा धान्य के

परिमाण का उल्लंघन करना, [ दासीदासप्रमाणातिक्रमाः ]  
दासी और दास के परिमाण का उल्लंघन करना तथा  
[ कृष्यप्रमाणातिक्रमाः ] वस्त्र, बर्तन आदि के परिमाण का  
उल्लंघन करना - ये पाँच अपरिग्रह अणुव्रत के अतिचार हैं।

Exceeding the limits set by oneself with regard to  
cultivable lands and houses, riches such as gold and  
silver, cattle and corn, men and women servants,  
and clothes.

---

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥३०॥

[ ऊर्ध्वव्यतिक्रमः ] माप से अधिक ऊंचाई वाले स्थलों में  
जाना, [ अधःव्यतिक्रमः ] माप से नीचे (कुँआ, खान आदि)  
स्थानों में उतरना, [ तिर्यक्व्यतिक्रमः ] समान स्थान के माप  
से बहुत दूर जाना, [ क्षेत्रवृद्धिः ] की हुई मर्यादा में क्षेत्र को  
बढ़ा लेना और [ स्मृत्यन्तराधानं ] क्षेत्र की की हुई मर्यादा को  
भूल जाना - ये पाँच दिग्ब्रत के अतिचार हैं।

Exceeding the limits set in the directions, namely  
upwards, downwards and horizontally, enlarging  
the boundaries in the accepted directions, and  
forgetting the boundaries set, are the five  
transgressions of the minor vow of direction.

## आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥३१॥

[ आनयनं ] मर्यादा से बाहर की चीज को मंगाना,  
 [ प्रेष्यप्रयोगः ] मर्यादा से बाहर नौकर आदि को भेजना,  
 [ शब्दानुपातः ] खांसी, शब्द आदि से मर्यादा के बाहर जीवों को अपना अभिप्राय समझा देना, [ रूपानुपातः ] अपना रूप आदि दिखाकर मर्यादा के बाहर के जीवों को इशारा करना और [ पुद्गलक्षेपाः ] मर्यादा के बाहर कंकर, पत्थर आदि फेंककर अपने कार्य का निर्वाह कर लेना - ये पाँच देशव्रत के अतिचार हैं।

Sending for something outside the country of one's resolve, commanding someone there to do thus, indicating one's intentions by sounds, by showing oneself, and by throwing clod etc.

## कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोग- परिभोगानर्थक्यानि ॥३२॥

[ कन्दर्प ] राग से हास्यसहित अशिष्ट वचन बोला,  
 [ कौत्कुच्यं ] शरीर की कुचेष्टा करके अशिष्ट वचन बोलना,  
 [ मौखर्यं ] धृष्टतापूर्वक जरूरत से ज्यादा बोलना,  
 [ असमीक्ष्याधिकरणं ] बिना प्रयोजन मन, वचन, काय की



प्रवृत्ति करना और [ उपभोग-परिभोगानर्थक्यं ] भोग-उपभोग के पदार्थों का जरूरत से ज्यादा संग्रह करना - ये पाँच अनर्थदंडव्रत के अतिचार हैं।

Vulgar jokes, vulgar jokes accompanied by gesticulation, garrulity, unthinkingly indulging in too much action, keeping too many consumable and non-consumable objects, are the five transgressions of the vow of desisting from unnecessary sin.

---

### योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

[ योगदुष्प्रणिधानं ] मन सम्बन्धी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना, वचन सम्बन्धी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना, काय सम्बन्धी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना, [ अनादर ] सामायिक के प्रति उत्साह रहित होना, [ स्मृत्यनुपस्थानं ] एकाग्रता के अभाव को लेकर सामायिक के पाठ आदि भूल जाना - ये पाँच सामायिक शिक्षाव्रत के अतिचार हैं।

Misdirected three-fold activity, lack of earnestness, and fluctuation of thought, are the five transgressions of concentration.

## अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादान- संस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥

[ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादर-  
स्मृत्यनुपस्थानानि ] बिना देखी, बिना शोधी जमीन में  
मल-मूत्रादि क्षेपण करना, बिना देखे, बिना शोधे पूजन के  
उपकरण ग्रहण करना, बिना देखे, बिना शोधे जमीन पर  
चटाई, वस्त्र आदि बिछाना, भूख आदि से व्याकुल हो  
आवश्यक धर्म-कार्य उत्साह-रहित होकर करना और  
आवश्यक धर्म-कार्यों को भूल जाना - ये पाँच प्रोषधोपवास  
शिक्षाव्रत के अतिचार हैं।

Excreting, handling sandalwood paste, flowers etc.,  
and spreading mats and garments without  
inspecting and cleaning the place and the  
materials, lack of earnestness, and lack of  
concentration.

### सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥३५॥

1- सचित्त-जीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, 2- सचित्त  
पदार्थ के साथ सम्बन्ध वाले पदार्थ, 3- सचित्त पदार्थ से  
मिले हुये पदार्थ, 4- अभिषव - गरिष्ठ पदार्थ, और  
5- दुःपक्व अर्थात् आधे पके या अधिक पके हुए या बुरी

तरह से पके पदार्थ - इनका आहार करना - ये पाँच उपभोग-परिभोग परिमाण शिक्षाव्रत के अतिचार हैं।

Victuals containing (one-sensed) organisms, placed near organisms, mixed with organisms, stimulants, and ill-cooked food.

---

**सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः**

**॥३६॥**

[ **सचित्तनिक्षेपः** ] सचित्त पत्र आदि में रखकर भोजन देना,  
[ **सचित्तापिधानं** ] सचित्त पत्र आदि से ढके हुये भोजन आदि को देना [ **परव्यपदेशः** ] दूसरे दातार की वस्तु को देना [ **मात्सर्य** ] अनादरपूर्वक देना अथवा दूसरे दातार की वस्तु को ईर्ष्यापूर्वक देना और [ **कालातिक्रमः** ] योग्य काल का उल्लंघन करके देना - ये पाँच अतिथिसंविभाग शिक्षाव्रत के अतिचार हैं।

Placing the food on things with organisms such as green leaves, covering it with such things, food of another host, envy, and untimely food.

## जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥३७॥

[ जीविताशंसा ] सल्लेखना धारण करने के बाद जीने की इच्छा करना, [ मरणाशंसा ] वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की इच्छा करना, [ मित्रानुरागः ] अनुराग के द्वारा मित्रों का स्मरण करना, [ सुखानुबन्ध ] पहले भोगे हुये सुखों का स्मरण करना और [ निदानं ] निदान करना अर्थात् आगामी विषय-भोगों की वांछा करना - ये पाँच सल्लेखनाव्रत के अतिचार हैं।

Desire for life, desire for death, recollection of affection for friends, recollection of pleasures, and constant longing for enjoyment.

## अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥

[ अनुग्रहार्थं ] अनुग्रह-उपकार के हेतु से [ स्वस्यातिसर्गः ] धन आदि अपनी वस्तु का त्याग करना सो [ दानं ] दान है।

Charity is the giving of one's wealth to another for mutual benefit.

## विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥

[ विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् ] विधि, द्रव्य, दातृ और पात्र की विशेषता से [ तद्विशेषः ] दान में विशेषता होती है।

The distinction with regard to the effect of a gift consists in the manner, the thing given, the nature of the giver, and the nature of the recipient.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥

\* \* \*

## अथ अष्टमोऽध्यायः Bondage of Karma

---

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥१॥

[ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः ] मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग - ये पाँच [ बन्धहेतवः ] बन्ध के कारण हैं।

Wrong belief, non-abstinence, negligence, passions, and activities are the causes of bondage.

---

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स  
बन्धः ॥२॥

[ जीवः सकषायत्वात् ] जीव कषायसहित होने से [ कर्मणः योग्यान्पुद्गलान् ] कर्म के योग्य पुद्गल परमाणुओं को [ आदत्ते ] ग्रहण करता है [ स बन्धः ] वह बन्ध है।

The individual self attracts particles of matter which are fit to turn into karma, as the self is actuated by passions. This is bondage.

---

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥

[ तत् ] उस बन्ध के [ प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाः ] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध [ विधयः ] ये चार भेद हैं।

Bondage is of four kinds according to the nature or species of karma, duration of karma, fruition of karma, and the quantity of space-points of karma.

---

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम-  
गोत्रान्तरायाः ॥४॥

[ आद्यो ] पहला अर्थात् प्रकृतिबन्ध [ ज्ञानदर्शनावरण-  
वेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ] ज्ञानावरण, दर्शनावरण,  
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय - इन आठ  
प्रकार का है।

The type-bondage is of eight kinds, knowledge-  
obscuring, perception-obscuring, feeling-producing,  
deluding, life-determining, name-determining  
(physique-making), status-determining, and  
obstructive karmas.

---

पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा  
यथाक्रमम् ॥५॥

[ यथाक्रमम् ] उपरोक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के अनुक्रम  
से [ पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदाः ]  
पाँच, नव, दो, अट्ठाईस, चार, ब्यालीस, दो और पाँच  
भेद हैं।

The subdivisions are five, nine, two, twenty-eight, four, forty-two, two, and five kinds respectively.

---

**मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥**

[ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ] मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण कर्म के पाँच भेद हैं।

Karmas which obscure sensory knowledge, scriptural knowledge, clairvoyance, telepathy, and omniscience, are the five kinds of knowledge-obscuring karmas.

---

**चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला-  
प्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च ॥७॥**

[ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां ] चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण  
[ निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च ] निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृह्य - ये नव भेद दर्शनावरण कर्म के हैं।



The four karmas that cover ocular perception, non-ocular intuition, clairvoyant perception, and perfect perception, sleep, deep sleep, drowsiness (sleep in sitting posture), heavy drowsiness (intense sleep in sitting posture), and somnambulism (committing cruel deeds in sleep), are the nine subtypes of perception-covering karmas.

---

### सदसद्वेद्ये ॥८॥

[ सदसद्वेद्ये ] सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो वेदनीय कर्म के भेद हैं।

The two karmas which cause pleasant feeling and unpleasant feeling respectively are the two subtypes of feeling-producing karmas.

---

दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनव-  
षोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ  
हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुत्रपुंसकवेदा  
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्चलन-  
विकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥९॥

[ दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याः ]  
दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय और

कषायवेदनीय - ये चार भेदरूप मोहनीय कर्म के हैं और इसके अनुक्रम से [ त्रिद्विनवषोडशभेदाः ] तीन, दो, नव और सोलह भेद हैं। वे इस प्रकार से हैं -

[ सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि ] सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यगमिथ्यात्वमोहनीय - ये दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं; [ अकषायकषायौ ] अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय ये दो भेद चारित्र मोहनीय के हैं;

[ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुत्रपुंसकवेदाः ] हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद - ये अकषायवेदनीय के नव हैं; और

[ अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः च ] अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संज्वलन के भेद से तथा [ एकशः क्रोधमानमायालोभाः ] इन प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रकार - ये सोलह भेद कषायवेदनीय के हैं। इस तरह मोहनीय कर्म के कुल अट्ठाईस भेद हैं।

The deluding karmas are of twenty-eight kinds. These are the three subtypes of faith-deluding karmas<sup>1</sup>, the two types of conduct-deluding karmas

<sup>1</sup> The three subtypes of faith-deluding karmas are wrong belief, mixed right and wrong belief, and right belief slightly clouded by wrong belief.

which cause (and which are caused by) the passions and quasi-passions, the subtypes of the passions<sup>2</sup> and the quasi-passions<sup>3</sup> being sixteen and nine respectively.

---

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥१०॥

[ नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ] नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु - ये चार भेद आयुकर्म के हैं।

(The life-karmas determine the quantum of life in the states of existence as) infernal beings, plants and animals, human beings, and celestial beings.

---

गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थान-  
संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघात-  
परघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः  
प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्ति-  
स्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥११॥

---

<sup>2</sup> The passions are four – anger, pride, deceitfulness, and greed. Each of these four is further divided into four classes, namely that which leads to infinite births, that which hinders partial abstinence, that which disturbs complete self-restraint, and that which interferes with perfect conduct. Thus the passions make up sixteen.

<sup>3</sup> The quasi-passions are nine, namely laughter, liking, disliking, sorrow, fear, disgust, the male sex-passion, the female sex-passion, and the neuter sex-passion.

[ गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थान-  
संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघात-

परघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः ] गति, जाति, शरीर,  
अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस,  
गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप,  
उद्योत, उच्छ्वास और विहायोगति - ये इक्कीस, तथा

[ प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्ति-

स्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि ] प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग,  
सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशःकीर्ति -  
ये दस तथा इनसे उलटे दस अर्थात् साधारण शरीर, स्थावर,  
दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, बादर (-स्थूल), अपर्याप्ति, अस्थिर,  
अनादेय और अपयशःकीर्ति - ये दस, [ तीर्थकरत्वं च ]  
और तीर्थकरत्त्व, इस तरह नामकर्म के कुल ब्यालीस भेद हैं।

The name (physique-making) karmas comprise the state of existence, the class, the body, the chief and secondary parts, formation, binding (union), molecular interfusion, structure, joint, touch, taste, odour, colour, movement after death, neither heavy nor light, self-annihilation, annihilation by others, emitting warm splendour, emitting cool lustre, respiration, gait, individual body, mobile being, amiability, a melodious voice, beauty of form, minute body, complete development (of the organs), firmness, lustrous body, glory and renown, and the

opposites of these (commencing from individual body), and *Tīrthakarātva*.

---

### उच्चैर्नीचैश्च ॥१२॥

[ उच्चैर्नीचैश्च ] उच्चगोत्र और नीचगोत्र - ये दो भेद गोत्र कर्म के हैं।

The high and the low.

---

### दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

[ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ] दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय - ये पाँच भेद अन्तराय कर्म के हैं। प्रकृतिबन्ध के उपभेदों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ।

The obstructive karmas are of five kinds, obstructing the making of gifts, gain, enjoyment of consumable things, enjoyment of non-consumable things, and effort (energy).

---

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च  
त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥१४॥

[ आदितस्तिसृणाम् ] आदि से तीन अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तथा वेदनीय [ अन्तरायस्य च ] और अन्तराय - इन चार कर्मों की [ परा स्थितिः ] उत्कृष्ट स्थिति [ त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः ] तीस कोड़ाकोड़ी सागर की है।

The maximum duration of the three main types (primary species) from the first and obstructive karmas is thirty *sāgaropama kotīkotī*.

---

### सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥

[ मोहनीयस्य ] मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति [ सप्ततिः ] सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर की है।

Seventy *sāgaropama kotīkotī* is the maximum duration of the deluding karmas.

---

### विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६॥

[ नामगोत्रयोः ] नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति [ विंशतिः ] बीस कोड़ाकोड़ी सागर की है।

Twenty *sāgaropama kotīkotī* is the maximum duration of the name-karma and the status-determining karma.

### त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥१७॥

[ आयुषः ] आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति  
[ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ] तैंतीस सागर की है।

Thirty-three *sāgaropamas* is the maximum duration of life.

---

### अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥

[ वेदनीयस्य अपरा ] वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति  
[ द्वादशमुहूर्ता ] बारह मुहूर्त की है।

The minimum duration of the feeling-producing karma is twelve *muhūrtas*.

---

### नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥

[ नामगोत्रयोः ] नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति  
[ अष्टौ ] आठ मुहूर्त की है।

The minimum duration of the name-karma and the status-determining karma is eight *muhūrtas*.

---

### शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥२०॥

[ शेषाणां ] बाकी के अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय और आयु - इन पाँच कर्मों की जघन्य स्थिति [ अन्तर्मुहूर्ता ] अन्तर्मुहूर्त की है।

The minimum duration of the rest is up to one *muhūrta*.

---

विपाकोऽनुभवः ॥२१॥

[ विपाकः ] विविध प्रकार का जो पाक है [ अनुभवः ] सो अनुभव है।

Fruition is the ripening or maturing of karmas.

---

स यथानाम ॥२२॥

[ सः ] यह अनुभाग बन्ध [ यथानाम ] कर्मों के नाम के अनुसार ही होता है।

(The nature of) fruition is according to the names of the karmas.

---

ततश्च निर्जरा ॥२३॥



[ ततः च ] तीव्र, मध्यम या मन्द फल देने के बाद  
[ निर्जरा ] उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है अर्थात् उदय में  
आने के बाद कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं।

After fruition (enjoyment), the karmas fall off or disappear.

---

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाह-  
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥२४॥

[ नामप्रत्ययाः ] ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का कारण,  
[ सर्वतः ] सर्व तरफ से अर्थात् समस्त भावों में  
[ योगविशेषात् ] योग विशेष से [ सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः ]  
सूक्ष्म, एकक्षेत्रावगाहरूप स्थित [ सर्वात्मप्रदेशेषु ] और सर्व  
आत्मप्रदेशों में [ अनन्तानन्तप्रदेशाः ] जो कर्म पुद्गल के  
अनन्तानन्त प्रदेश हैं सो प्रदेशबन्ध है।

The karmic molecules of infinite times infinite space-points always pervade in a subtle form the entire space-points of every soul in every birth. And these are absorbed by the soul because of its activity.

## सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥२५॥

[ सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि ] साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र [ पुण्यम् ] ये पुण्य-प्रकृतियाँ हैं।

The good variety of feeling-producing karmas, and the auspicious life, name, and status-determining karmas constitute merit (*punya*).

## अतोऽन्यत्पापम् ॥२६॥

[ अतःअन्यत् ] इन पुण्य-प्रकृतियों से अन्य अर्थात् असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र [ पापम् ] ये पाप-प्रकृतियाँ हैं।

The remaining varieties of karma constitute demerit.

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥



अथ नवमोऽध्यायः  
Stoppage and Shedding of Karma

---

आस्रवनिरोधः संवरः ॥१॥

[ आस्रवनिरोधः ] आस्रव का रोकना सो [ संवरः ] संवर है अर्थात् आत्मा में जिन कारणों से कर्मों का आस्रव होता है उन कारणों को दूर करने से कर्मों का आना रुक जाता है उसे संवर कहते हैं।

The obstruction of influx is stoppage (*samvara*).

---

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥२॥

[ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ] तीन गुप्ति, पाँच समिति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बावीस परीषहजय और पाँच चारित्र - इन छः कारणों से [ सः ] संवर होता है।

Stoppage (is effected) by control, carefulness, virtue, contemplation, conquest by endurance, and conduct.

---

तपसा निर्जरा च ॥३॥

[ तपसा ] तप से [ निर्जरा च ] निर्जरा होती है और संवर भी होता है।

By penance (austerity) dissociation also.

---

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

[ सम्यक्योगनिग्रहो ] भले प्रकार योग का निग्रह करना सो  
[ गुप्तिः ] गुप्ति है।

Curbing activity well is control (*gupti*).

---

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

[ ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः ] सम्यक् ईर्या, सम्यक् भाषा,  
सम्यक् एषणा, सम्यक् आदाननिक्षेप और सम्यक् उत्सर्ग - ये  
पाँच [ समितयः ] समिति हैं। (चौथे सूत्र का 'सम्यक्' शब्द  
इस सूत्र में भी लागू होता है।)

Walking, speech, eating, lifting and laying down,  
and depositing waste products constitute the five-  
fold regulation of activities.

---

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-  
ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥६॥

[ उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-  
ब्रह्मचर्याणि ] उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम  
शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम  
आकिञ्चन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य - ये दस [ धर्मः ] धर्म हैं।

Supreme forbearance, modesty, straightforward-  
ness, purity, truthfulness, self-restraint, austerity,  
renunciation, non-attachment, and celibacy  
constitute virtue or duty.

---

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्त्रवसंवरनिर्जरा-  
लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥७॥

[ अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्त्रवसंवरनिर्जरा-  
लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचिन्तनम् ] अनित्य,  
अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्त्रव, संवर,  
निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म - इन बारह के स्वरूप  
का बारम्बार चिन्तन करना सो [ अनुप्रेक्षाः ] अनुप्रेक्षा है।

Reflection is meditating on transitoriness, helpless-  
ness, transmigration, loneliness, distinctness,  
impurity, influx, stoppage, dissociation, the  
universe, rarity of enlightenment, and the truth  
proclaimed by religion.

---

**मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्याः परीषहाः ॥८॥**

[ मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थं ] संवर के मार्ग से च्युत न होने और कर्मों की निर्जरा के लिये [ परीषहाः परिषोढव्याः ] बाईस परीषह सहन करने योग्य हैं। (यह संवर का प्रकरण चल रहा है, अतः इस सूत्र में कहे गये 'मार्ग' शब्द का अर्थ 'संवर का मार्ग' समझना।)

The afflictions are to be endured so as not to swerve from the path of stoppage of karmas and for the sake of dissociation of karmas.

**क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-  
शय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमल-  
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्शनानि ॥९॥**

[ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-  
शय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमल-  
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्शनानि ] क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये बाईस परीषह हैं।

Hunger, thirst, cold, heat, insect-bites, nakedness, absence of pleasures, women, pain arising from roaming, discomfort of postures, uncomfortable couch, scolding, injury, begging, lack of gain, illness, pain inflicted by blades of grass, dirt, reverence and honour (good as well as bad reception), (conceit of) learning, despair or uneasiness arising from ignorance, and lack of faith (are the twenty-two hardships).

---

### सूक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥१०॥

[ सूक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोः ] सूक्ष्मसाम्पराय वाले जीवों के और छद्मस्थ वीतरागों के [ चतुर्दश ] 14 परीषह होती हैं।

Fourteen afflictions occur in the case of the saints in the tenth and twelfth stages.

---

### एकादश जिने ॥११॥

[ जिने ] तेरहवें गुणस्थान में जिनेन्द्रदेव के [ एकादश ] ऊपर बतलाई गई चौदह में से अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान इन तीन को छोड़कर बाकी की ग्यारह परीषह होती हैं।

Eleven afflictions occur to the Omniscient Jina.

---

### बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥

[ बादरसाम्पराये ] बादरसाम्पराय अर्थात् स्थूलकषाय वाले जीवों के [ सर्वे ] सर्व परीषह होती हैं।

All the afflictions arise in the case of the ascetic with gross passions.

---

### ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥१३॥

[ ज्ञानावरणे ] ज्ञानावरणीय के उदय से [ प्रज्ञाऽज्ञाने ] प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह होती हैं।

Extraordinary learning and ignorance are caused by knowledge-covering karmas.

---

### दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥१४॥

[ दर्शनमोहान्तराययोः ] दर्शनमोह और अन्तराय कर्म के उदय से [ अदर्शनालाभौ ] क्रम से अदर्शन और अलाभ परीषह होती हैं।

Misbelief and lack of gain are caused by faith-deluding and obstructive karmas.

---



चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना-  
सत्कारपुरस्काराः ॥१५॥

[ चारित्रमोहे ] चारित्रमोहनीय के उदय से [ नाग्न्यारतिस्त्री-  
निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ] नग्नता, अरति, स्त्री,  
निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कारपुरस्कार - ये सात  
परीषह होती हैं।

(The afflictions of) nakedness, absence of pleasures,  
woman, sitting posture, reproach, begging, and  
reverence and honour, are caused by conduct-  
deluding karmas.

वेदनीये शेषाः ॥१६॥

[ वेदनीये ] वेदनीय कर्म के उदय से [ शेषाः ] बाकी की  
ग्यारह परीषह अर्थात् क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक,  
चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, और मल - ये परीषह  
होती हैं।

The other afflictions are caused by feeling karmas.

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतिः ॥१७॥

[ एकस्मिन् युगपत् ] एक जीव के एक साथ [ एकादयो ]  
एक से लेकर [ आ एकोनविंशतिः ] उन्नीस परीषह तक  
[ भाज्याः ] जानना चाहिये।

The afflictions can occur simultaneously from one to nineteen.

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय-  
यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

[ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय-  
यथाख्यातम् ] सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि,  
सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात [ इति चारित्रम् ] इस प्रकार  
चारित्र के 5 भेद हैं।

Equanimity, reinitiation, purity of non-injury,  
slight passion, and perfect conduct are the five  
kinds of conduct.

अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग-  
विविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः ॥१९॥

[ अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-  
शय्यासनकायक्लेशा ] सम्यक् प्रकार से अनशन, सम्यक्  
अवमौदर्य, सम्यक् वृत्तिपरिसंख्यान, सम्यक् रसपरित्याग,  
सम्यक् विविक्तशय्यासन और सम्यक् कायक्लेश - ये [ बाह्यं  
तपः ] छः प्रकार के बाह्य तप हैं।

(The external austerities are) fasting, reduced diet, special restrictions for begging food, giving up stimulating and delicious dishes, lonely habitation, and mortification of the body.

---

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्

॥२०॥

[ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानानि ] सम्यक् रूप से प्रायश्चित्त, सम्यक् विनय, सम्यक् वैयावृत्त्य, सम्यक् स्वाध्याय, सम्यक् व्युत्सर्ग और सम्यक् ध्यान [ उत्तरम् ] ये छः प्रकार के अभ्यन्तर तप हैं।

Expiation, reverence, service, study, renunciation, and meditation are the internal austerities.

---

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥२१॥

[ प्राक् ध्यानात् ] ध्यान से पहले के पाँच तप के [ यथाक्रमं ] अनुक्रम से [ नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदाः ] नव, चार, दस, पाँच और दो भेद हैं अर्थात् सम्यक् प्रायश्चित्त के नव, सम्यक् विनय के चार, सम्यक् वैयावृत्त्य के दस, सम्यक् स्वाध्याय के पाँच और सम्यक् व्युत्सर्ग के दो भेद हैं।

Prior to meditation, these are of nine, four, ten, five, and two kinds respectively.

---

**आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद-  
परिहारोपस्थापनाः ॥२२॥**

[ आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद-  
परिहारोपस्थापनाः ] आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक,  
व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, ये प्रायश्चित्त तप के  
नव भेद हैं।

Confession, repentance, both, discrimination,  
giving up attachment to the body, penance,  
suspension, expulsion, and reinitiation.

---

**ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥२३॥**

[ ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ] ज्ञानविनय, दर्शनविनय,  
चारित्रविनय और उपचारविनय - ये विनय तप के चार  
भेद हैं।

Reverence to knowledge, faith, conduct, and the  
custom of homage.

---

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधु-  
मनोज्ञानाम् ॥२४॥

[ आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधु-  
मनोज्ञानाम् ] आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण,  
कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ - इन दस प्रकार के मुनियों की  
सेवा करना सो वैयावृत्य तप के दस भेद हैं।

Respectful service to the Head (*ācārya*), the  
preceptor, the ascetic, the disciple, the ailing  
ascetic, the congregation of aged saints, the  
congregation of disciples of a common teacher, the  
congregation of the four orders (of monks, nuns,  
laymen, and laywomen), the long-standing ascetic,  
and the saint of high reputation.

---

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ॥२५॥

[ वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ] वाचना, पृच्छना,  
अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश - ये स्वाध्याय के पाँच  
भेद हैं।

Teaching, questioning, reflection, recitation, and  
preaching.

## बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥२६॥

[ बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ] बाह्य उपधिव्युत्सर्ग और अभ्यन्तर उपधिव्युत्सर्ग - ये दो व्युत्सर्ग तप के भेद हैं।

Giving up external and internal attachments.

---

## उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात् ॥२७॥

[ उत्तमसंहननस्य ] उत्तम संहनन वाले के [ आ अन्तर्मुहूर्तात् ] अन्तर्मुहूर्त तक [ एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ] एकाग्रतापूर्वक चिन्ता का निरोध सो ध्यान है।

Concentration of thought on one particular object is meditation. In the case of a person with the best physical structure or constitution it extends up to one *muhūrta*.

---

## आतरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥२८॥

[ आतरौद्रधर्म्यशुक्लानि ] आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल - ये ध्यान के चार भेद हैं।

The painful (sorrowful), the cruel, the virtuous (righteous), and the pure.

---

परे मोक्षहेतू ॥२९॥

[ परे ] जो चार प्रकार के ध्यान कहे उनमें से अन्त के दो अर्थात् धर्मध्यान और शुक्लध्यान [ मोक्षहेतू ] मोक्ष के कारण हैं।

The last two are the causes of liberation.

---

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः  
॥३०॥

[ अमनोज्ञस्य सम्प्रयोगे ] अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर [ तद्विप्रयोगाय ] उसके दूर करने के लिये [ स्मृतिसमन्वाहारः ] बारम्बार विचार करना सो [ आर्तम् ] 'अनिष्ट संयोगज' नाम का आर्तध्यान है।

On the contact of disagreeable objects, thinking again and again for their removal is the first kind of sorrowful concentration.

---

## विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥

[ मनोज्ञस्य ] मनोज्ञ पदार्थ सम्बन्धी [ विपरीतं ] उपरोक्त सूत्र में कहे हुए से विपरीत अर्थात् इष्ट-पदार्थ का वियोग होने पर उसके संयोग के लिये बारम्बार विचार करना सो 'इष्ट-वियोगज' नाम का आर्तध्यान है।

The contrary in the case of agreeable objects.

---

## वेदनायाश्च ॥३२॥

[ वेदनायाः च ] रोगजनित पीड़ा होने पर उसे दूर करने के लिये बारम्बार चिन्तवन करना सो वेदनाजन्य आर्तध्यान है।

In the case of suffering from pain also.

---

## निदानं च ॥३३॥

[ निदानं च ] भविष्यकाल सम्बन्धी विषयों की प्राप्ति में चित्त को तल्लीन कर देना सो निदानज आर्तध्यान है।

The wish for enjoyment also.

---



## तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥३४॥

[ तत् ] वह आर्तध्यान [ अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ]  
अविरत - पहले चार गुणस्थान, देशविरत - पाँचवां गुणस्थान  
और प्रमत्त संयत - छठे गुणस्थान में होता है।

These occur in the case of laymen with and without  
small vows and non-vigilant ascetics.

---

हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः  
॥३५॥

[ हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यः ] हिंसा, असत्य, चोरी और  
विषय-संरक्षण के भाव से उत्पन्न हुआ ध्यान [ रौद्रम् ]  
रौद्रध्यान है; यह ध्यान [ अविरतदेशविरतयोः ] अविरत और  
देशविरत (पहले से पाँच) गुणस्थानों में होता है।

Cruel concentration relating to injury, untruth,  
stealing, and safeguarding of possessions occurs in  
the case of laymen with and without partial vows.

---

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥

[ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय ] आज्ञाविचय,  
अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय के लिये  
चिन्तवन करना सो [ धर्म्यम् ] धर्मध्यान है।

The contemplation of objects of revelation, misfortune or calamity, fruition of karmas, and the structure of the universe, is virtuous concentration.

---

### शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥३७॥

[ शुक्ले चाद्ये ] पहले दो प्रकार के शुक्लध्यान अर्थात् पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क - ये दो ध्यान भी

[ पूर्वविदः ] पूर्वज्ञानधारी श्रुतकेवली के होते हैं।

The first two types of pure concentration are attained by the saints well-versed in the *pūrvas*.

---

### परे केवलिनः ॥३८॥

[ परे ] शुक्लध्यान के अन्तिम दो भेद अर्थात् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये दो ध्यान

[ केवलिनः ] केवलि भगवान के होते हैं।

The last two arise in the omniscients.

---

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरत-  
क्रियानिवर्तीनि ॥३९॥

[ पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया-  
निवर्तीनि ] पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति  
और व्युपरतक्रियानिवर्ति - ये शुक्लध्यान के चार भेद हैं।

(The four types of pure concentration are) that of  
different, scriptural, shifting, that of the single  
scriptural, that of subtle activity, and that of  
complete destruction of activity<sup>1</sup>.

---

### त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥४०॥

[ त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ] ऊपर कहे गये चार प्रकार  
के शुक्लध्यान अनुक्रम से तीन योग वाले, एक योग वाले,  
मात्र काययोग वाले और अयोगी जीवों के होते हैं।

Of three activities, one activity, bodily activity, and  
no activity.

---

### एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४१॥

[ एकाश्रये ] एक (-परिपूर्ण) श्रुतज्ञानी के आश्रय से रहने  
वाले [ पूर्वे ] शुक्लध्यान के पहले दो भेद [ सवितर्कवीचारे ]  
वितर्क और वीचार सहित हैं।

---

<sup>1</sup> *Prathaktvavitarka, ekatvavitarka, sūkṣmakriyāpratipāti* and  
*vyuparatakriyānivartī* are the Sanskrit names of the four types of  
pure concentration.

The first two types are based on one substratum and are associated with scriptural knowledge and shifting.

---

### अवीचारं द्वितीयम् ॥४२॥

[ द्वितीयम् ] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानों में से दूसरा शुक्लध्यान [ अवीचारं ] वीचार से रहित है, किन्तु सवितर्क होता है।

The second type is free from shifting.

---

### वितर्कः श्रुतम् ॥४३॥

[ श्रुतम् ] श्रुतज्ञान को [ वितर्कः ] वितर्क कहते हैं।

*Vitarka* is scriptural knowledge.

---

### वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ॥४४॥

[ अर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ] अर्थ, व्यञ्जन और योग का बदलना सो [ वीचारः ] वीचार है।

*Vicāra* is shifting with regard to objects, words and activities.

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोह-  
क्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः  
क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥४५॥

[ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोह-  
क्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः ] सम्यग्दृष्टि,  
पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक, विरत-मुनि, अनन्तानुबन्धी का  
विसंयोजन करने वाला, दर्शनमोह का क्षय करने वाला,  
उपशमश्रेणी मांडनेवाला, उपशान्तमोह, क्षपकश्रेणी मांडनेवाला,  
क्षीणमोह और जिन - इन सब के (अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त परिणामों  
की विशुद्धता की अधिकता से आयुकर्म को छोड़कर) प्रति  
समय [ क्रमशः असंख्येयगुणनिर्जराः ] क्रम से  
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।

The dissociation of karmas increases innumerable-  
fold from stage to stage in the ten stages of the  
right believer, the householder with partial vows,  
the ascetic with great vows, the separator of the  
passions leading to infinite births, the destroyer of  
faith-deluding karmas, the suppressor of conduct-  
deluding karmas, the saint with quiescent passions,  
the destroyer of delusion, the saint with destroyed  
delusion, and the spiritual victor (Jina).

पुलाकबकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥४६॥

[ पुलाकबकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका ] पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक - ये पाँच प्रकार के [ निर्ग्रन्थाः ] निर्ग्रन्थ हैं।

*Pulāka, Bakuṣa, Kuṣīla, Nirgrantha, and Snātaka* are the passionless saints.

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः  
साध्याः ॥४७॥

उपरोक्त मुनि [ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपाद-स्थानविकल्पतः ] संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान - इन आठ अनुयोगों द्वारा [ साध्याः ] भेदरूप से साध्य हैं, अर्थात् इन आठ प्रकार से इन पुलाकादि मुनियों में विशेष भेद होते हैं।

They are fit to be described (differentiated) on the basis of differences in self-restraint, scriptural knowledge, transgression, the period of *Tīrthamkara*, the sign, the colouration, birth, and the state or condition.

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे नवमोध्यायः ॥



## अथ दशमोऽध्यायः

### Liberation

---

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥१॥

[ मोहक्षयात् ] मोह का क्षय होने से (अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त क्षीणकषाय नामक गुणस्थान प्राप्त करने के बाद)

[ ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् च ] और ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीन कर्मों का एक साथ क्षय होने से [ केवलम् ] केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

Omniscience (perfect knowledge) is attained on the destruction of deluding karmas, and on the destruction of knowledge- and perception-covering karmas and obstructive karmas.

---

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥२॥

[ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां ] बन्ध के कारणों (मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग) का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा [ कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ] समस्त कर्मों का अत्यन्त नाश हो जाना सो मोक्ष है।

Owing to the absence of the cause of bondage and with the functioning of the dissociation of karmas,

the annihilation of all karmas is liberation<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> The reader's attention is drawn to the distinction between the two stages represented by the 'Arhat' and the 'Siddha'. The attainment of omniscience is described in the first sutra of this chapter, and the attainment of complete liberation in the second. Omniscience is attained on the destruction of the deluding, the knowledge-obscuring, the perception-obscuring and the obstructive karmas, in the order mentioned in the first sutra. As long as the deluding karmas are very powerful, spiritual progress is very slow if not impossible. In that condition the self is almost a slave to the karmic forces at work and is tossed to and fro in the ocean of transmigration. The secret of spiritual progress lies in the ascendancy acquired with great difficulty and effort by the self over the deluding karmas. Only then does the self become the master of evil and begin to succeed in overcoming evil. It is no doubt a tough fight between the self and evil, and there may be ups and downs in this long and arduous struggle. But the undaunted and unconquerable soul carries on the battle incessantly, gradually establishes ascendancy over the forces of evil, ultimately roots out evil with the help of pure concentration and becomes the Victor. This epic story of the struggles of the soul with the forces of evil may be read with absorbing interest in the several masterpieces of Jaina literature in Sanskrit, Tamil, Kannada and other Indian languages. These four – the deluding, knowledge-obscuring, perception-obscuring and obstructive karmas – are called destructive (*ghāti*) karmas, as these four main types of karmas interfere with the four infinitudes described in the fourth sutra, which are the essential characteristics of the soul. The other four main types are called non-destructive (*aghāti*) karmas, as these do not harm these four infinitudes. The self attaining omniscience becomes an *Arhat*, and the self attaining complete release a *Siddha*. There may be a longer or a shorter interval between the attainment of these two stages. That depends upon the lifetime still remaining on the manifestation of omniscience. And this may vary from soul to soul. Till the time of complete release, the *Arhat* is associated with the body. When the other four types of karmas are entirely destroyed, the released pure soul (*Siddha*) goes up to the summit of the universe and dwells there in eternal bliss.



## औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥३॥

[ च ] और [ औपशमिकादि भव्यत्वानां ] औपशमिकादि भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव होता है - हो जाता है।

(Emancipation is attained) on the destruction of psychic factors also like quietism and potentiality.

---

## अन्यत्रकेवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥४॥

[ केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र ]  
केवलसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व, इन भावों के अतिरिक्त अन्य भावों के अभाव से मोक्ष होता है।

Other than infinite faith, infinite knowledge, infinite perception, and infinite perfection.

---

## तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥५॥

[ तदनन्तरम् ] तुरन्त ही [ ऊर्ध्वं आलोकान्तात् गच्छति ]  
ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग तक जाता है।

Immediately after that the soul darts up to the end of the universe.

---

**पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥**

[ पूर्वप्रयोगात् ] 1- पूर्व प्रयोग से, [ असंगत्वात् ] 2- संग रहित होने से, [ बन्धच्छेदात् ] 3- बन्ध का नाश होने से, [ तथागतिपरिणामात् च ] और 4- तथागति परिणाम अर्थात् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन होता है।

As the soul is previously impelled, as it is free from ties or attachment, as the bondage has been snapped, and as it is of the nature of darting upwards.

**आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीज-  
वदग्निशिखावच्च ॥७॥**

मुक्त जीव [ आविद्धकुलालचक्रवत् ] 1- कुम्हार द्वारा घुमाये हुए चाक की तरह पूर्व प्रयोग से, [ व्यपगत-लेपालाबुवत् ] 2- लेप दूर हो चुका है जिसका ऐसी तूम्बे की तरह संग रहित होने से, [ एरण्डबीजवत् ] 3- एरण्ड के बीज की तरह बन्धन रहित होने से [ च ] और [ अग्नि-शिखावत् ] 4- अग्नि की शिखा (लौ) की तरह ऊर्ध्वगमन स्वभाव से - ऊर्ध्वगमन (ऊपर को गमन) करता है।

Like the potter's wheel, the gourd devoid of mud, the shell of the castor-seed, and the flame of the candle.

## धर्मास्तिकायाभावात् ॥८॥

[ धर्मास्तिकायाभावात् ] आगे (अलोक में) धर्मास्तिकाय का अभाव है अतः मुक्त जीव लोक के अन्त तक ही जाता है।

As there is no medium of motion.

---

क्षेत्रकालगतिलिंगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित-  
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥९॥

[ क्षेत्रकालगतिलिंगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित-  
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः ] क्षेत्र, काल, गति, लिंग,  
तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर,  
संख्या और अल्पबहुत्व - इन बारह अनुयोगों से [ साध्याः ]  
मुक्त जीवों (सिद्धों) में भी भेद सिद्ध किये जा सकते हैं।

The emancipated souls can be differentiated with reference to the region, time, state, sign, type of *Arhat*, conduct, self-enlightenment, enlightened by others, knowledge, stature, interval, number, and numerical comparison.

---

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥



कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव।  
पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतद्श्रुतं पञ्चपदं नमामि ॥

अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सव्वं।  
पणमामि भत्तिजुत्तो, सुदणाणमहोवयं सिरसा॥

अक्षरमात्रपदस्वरहीनं, व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफम्।  
साधुभिरत्रमम्क्षमितव्यं, को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे।

दशाऽध्याये परिच्छिन्ने, तत्त्वार्थे पठिते सति।  
फलं स्यादुपवासस्य, भाषितं मुनिपुङ्गवैः॥

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं, गृद्धपिच्छोपलक्षितम्।  
वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वामिमुनीश्वरम्॥

जं सक्कई तं कीरइ, जं च ण सक्कई तहेव सहहणं।  
सहहमाणो जीवो, पावइ अजरामरं ठाणं॥

तवयरणं वयधरणं संजमसरणं च जीवदयाकरणम्।  
अंते समाहिमरणं चउविह दुक्खं णिवारेई॥

॥ इति तत्त्वार्थसूत्रापरनामतत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रं समाप्तम् ॥

\* \* \*

.....

## EPILOGUE

It would be most appropriate to give here an excerpt from *Reality*, the English translation of Āchārya Puḷyapāda's '*Sarvārthasiddhi*' – a commentary on Āchārya Umāsvami's '*Tattvārthādhi-gama Sūtra*' (p. 290):

“ This exposition of ultimate reality, the essence of the supreme and immortal teachings of Lord Jina, called *Sarvārthasiddhi* by the learned, deserves to be contemplated incessantly by the venerable, seeking celestial happiness and eternal bliss.

Those who listen to and study with devotion this great commentary, describing the true nature of reality, have in their palms the final beatitude of supreme attainment. What, then, is there to be said about the happiness of the lords of men and of devas!<sup>1</sup>

I bow with great devotion to Lord Mahavira, who has expounded the entire reality with his infinite knowledge in an indisputable manner, who is endowed with supreme attributes, and who is worshipped by human beings and devas.”

---

<sup>1</sup> The idea is that it is considerably easy to secure these ephemeral goals rather than the ultimate goal of the ambrosial happiness of supreme bliss.

## INDEX (HINDI)

- अकामनिर्जरा 88  
अचौर्य 95  
अजीव 3, 66, 82  
अणुव्रत 83, 101, 106  
अतिथिसंविभाग 101, 110  
अर्थ 2, 143  
अदर्शन 129, 131  
अधर्म 66, 67, 68, 70, 71  
अधिकरण 4, 82, 83  
अधिगम 4  
अधोलोक 36  
अनर्थदण्डव्रत 101  
अनन्तानुबन्धी 117, 144  
अनित्य 128  
अनुत्तर 57  
अनुदिश 57, 60, 62  
अनुप्रेक्षा 126, 128, 136  
अन्तराय 84, 92, 114, 120, 121,  
123, 131, 146  
अन्यत्व 128  
अप्रत्याख्यान 117  
अभ्यन्तर तप 134  
अलाभ 129, 130, 131  
अल्पबहुत्व 4, 150  
अवगाह 42, 69, 70, 71  
अवग्रह 7, 8  
अवधिज्ञान 5, 9, 10, 12, 19, 58,  
115  
अवसर्पिणी 46  
अवाय 7  
अविरति 113, 146  
अशरण 128  
अशुचि 128  
अहिंसा 94, 98, 103  
अज्ञान 17, 18, 129, 130, 131  
आकाश 36, 66, 67, 68, 71  
आकिंचन्य 128  
आर्जव 128  
आर्तध्यान 137  
आत्मा 31, 80, 82, 124, 126  
आदाननिक्षेप 94, 127  
आयु 35, 43, 47, 50, 58, 61, 62,  
63, 64, 65, 87, 88, 114, 122,  
123, 125  
आस्रव 3, 80, 81, 82, 83, 85, 86,  
87, 88, 89, 90, 91, 92, 126,  
128  
आहारक 29, 30, 33  
इन्द्र 52, 53  
इन्द्रिय 7, 21, 22, 23, 24, 58, 72,  
75, 81, 97  
ईहा 7, 8  
उत्सर्ग 127  
उत्सर्पिणी 46  
उपपाद 27, 28, 29, 32, 35, 60

## Index (Hindi)

उपभोग-परिभोग परिमाण 101, 110

उपयोग 19, 22

ऊर्ध्वगमन 148, 149

ऋजुमति 10

ऋजुसूत्र 14

एकत्व 128

एकत्ववितर्क 141, 142

एवंभूत 14

एषणा 127

ऐरावत 40, 44, 46, 49

औदयिक 15, 18

औदारिक 29, 32

औपशमिक 15, 16, 148

कर्म 1, 20, 33, 80, 81, 85, 86,  
89, 90, 91, 92, 113, 115,  
116, 117, 118, 119, 120,  
121, 122, 124, 131, 132,  
144, 146

कर्मभूमि 49

कल्पातीत 56, 59

कल्पोपपन्न 51, 56

कषाय 18, 33, 81, 83, 86, 99,  
113, 116, 117, 131, 146

कार्मण 25, 29, 30, 31, 32

काल 4, 46, 73, 78, 79, 110, 150

केवलदर्शन 16, 148

केवलज्ञान 5, 6, 10, 12, 16, 19,  
115, 146, 148

क्रोध 18, 81, 95, 117

गर्भ 27, 28, 29, 32, 34

गुणव्रत 101

गुणस्थान 33, 130, 140, 144, 146

गुप्ति 126, 127

ग्रैवेयक 57, 59, 62

गोत्र 114, 120, 121, 122, 125

घनवातवलय 36

घनोदधिवातवलय 36

चक्षु 8, 17, 19, 23, 75

चारित्र 16, 17, 86, 117, 126,  
133, 150

चोरी 93, 99, 104, 140

छेदोपस्थापना 133

जम्बूद्वीप 39, 40, 48

जीव 2, 3, 4, 11, 13, 15, 19, 20,  
21, 25, 26, 31, 37, 60, 66,  
68, 71, 81, 82, 83, 99, 100,  
101, 113, 132, 148, 149, 150

जीवत्व 18

ज्योतिषी देव 51, 52, 53, 55, 56,  
65

तत्त्व 1, 2, 3, 4

तनुवातवलय 36

तप 90, 126, 128, 133, 134,  
135, 136, 137

तिर्य्यच 10, 18, 34, 47, 50, 87,  
118

तीर्थकर 90

तैजस 29, 30, 31, 33

त्याग 90, 93, 95, 96, 97, 111, 128

दर्शनावरण 84, 114, 115, 121, 123, 146

दान 16, 17, 85, 92, 111, 120

दिग्ब्रत 101, 106

देव 9, 18, 28, 32, 34, 35, 38, 43, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 86

देशब्रत 100, 101, 107

देशविरत 140

द्रव्य 3, 8, 12, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 99

धर्म 66, 67, 68, 70, 71, 86, 109, 126, 128, 137, 138, 140

धर्मध्यान 137, 138, 140

धारणा 7

ध्रौव्य 75

ध्यान 134, 137, 138, 140, 141

नदियाँ 44, 45

नय 4, 14

नरक 18, 36, 38, 63, 64, 86, 118

नाम 3, 39, 41, 43, 48, 114, 121, 122, 123, 125, 138

नारक, नारकी 9, 28, 34, 35, 37, 38, 60, 63, 86, 118

निर्ग्रन्थ 145

निर्जरा 3, 123, 124, 126, 128, 129, 144, 146

निर्देश 4

निषद्या 129, 132

नैगम 14

परमाणु 30, 69, 74, 76, 77, 78, 113

परिग्रह 58, 86, 87, 93, 97, 100

परिहारविशुद्धि 133

परीषह 129, 130, 131, 132

परोक्ष 5

पाप 80, 93, 97, 125

पारिणामिक 15, 18, 148

पुण्य 80, 125

पुद्गल 11, 25, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 113, 124

पृथक्त्ववितर्क 141, 142

प्रत्यक्ष 6

प्रत्याख्यान 95, 117

प्रदेश 30, 66, 68, 69, 70, 71, 80, 113, 124

प्रमाण 4, 5, 6

प्रमाद 99, 113, 146

प्रज्ञा 129, 130, 131

प्रायश्चित्त 134, 135

प्रोषधोपवास 101, 109

बन्ध 3, 73, 76, 77, 103, 113, 123, 146, 149

बाह्य तप 133

बोधिदुर्लभ 128

ब्रह्मचर्य 96, 128

भरत 40, 44, 45, 46, 48, 49



## Index (Hindi)

भवनवासी देव 51, 53, 54, 61, 64  
भव्यत्व 18, 148  
भाव 3, 4, 15, 18, 89, 99, 140,  
148  
मतिज्ञान 5, 6, 7, 9, 11, 19, 115  
मध्यलोक 39  
मन 7, 8, 23, 53, 80, 83, 94, 99,  
107, 108  
मनःपर्ययज्ञान 5, 10, 11, 12, 19,  
115  
मनुष्य 10, 18, 24, 34, 47, 49, 50,  
53, 55, 56, 60, 87, 118  
मार्दव 128  
मान 18, 117  
मानुषोत्तर 49  
माया 18, 87, 117  
मिथ्यादर्शन 18, 113  
मिथ्याज्ञान 13, 19  
मेरु 39, 48, 49, 55  
मैथुन 93, 100  
मोहनीय 86, 114, 116, 117, 121,  
123, 132  
मोक्ष 2, 3, 35, 60, 138, 146, 148  
मोक्षमार्ग 1, 2  
यथाख्यात 133  
योग 80, 83, 85, 89, 99, 113,  
124, 127, 142, 143, 146  
योनि 27, 60  
रत्नत्रय 4  
रम्यक 40, 44  
सौद्रघ्यान 137

लब्धि 17, 22, 33  
लिंग 18, 145, 150  
लेश्या 18, 37, 51, 58, 59, 145  
लोक 3, 70, 97, 128, 148, 150  
लोभ 18, 95, 117  
वचन 72, 80, 83, 94, 95, 99,  
107, 108  
वनस्पति 24  
विक्रिया 37  
विग्रहगति 25, 26  
वितर्क 141, 142, 143  
विदेह 40, 44, 45, 46, 47, 49  
विधान 4  
विनय 90, 134, 135  
विपुलमति 10  
वीचार 142, 143  
वीर्य 16, 17, 82, 92  
वेदना 37, 111, 139  
वेदनीय 114, 116, 117, 121, 122,  
125, 132  
वैक्रियिक 29, 32, 33  
वैमानिक देव 51, 56, 57, 58  
वैयावृत्य 90, 134, 136  
व्यञ्जन 143  
व्यन्तर देव 51, 52, 53, 55, 64  
व्युत्सर्ग 134, 135, 137  
व्युपरतक्रियानिवर्ति 141, 142  
शरीर 25, 29, 30, 31, 32, 33, 37,  
53, 58, 72, 80, 96, 98, 107,  
118, 119

शल्य 100  
 शलक्षात्रत 101, 108, 109, 110  
 शुक्लध्यान 137, 138, 141, 142,  
 143  
 शौच 85, 128  
 श्रावक 100, 101, 102, 144  
 श्रुतज्ञान 5, 9, 11, 19, 23, 115,  
 143  
 संख्या 4, 81, 150  
 संज्वलन 117  
 संयम 17, 18, 85, 88, 128, 145  
 संयमासंयम 17, 88  
 संवर 3, 126, 128, 129  
 संवेग 90, 98  
 संसार 81, 90, 98, 128  
 संहनन 119, 137  
 सत् 4, 13, 75  
 सत्य 95, 104, 128  
 समभिरूढ 14  
 समिति 94, 126, 127  
 समुद्र 39, 44  
 सम्मूर्च्छन 27, 29, 32, 34  
 सम्यक्चारित्र 2  
 सम्यक्त्व 16, 17, 81, 89, 117,  
 148  
 सम्यग्दर्शन 2, 3, 4, 89, 100, 102  
 सम्यग्दृष्टि 60, 101, 144  
 सम्यग्ज्ञान 2, 19  
 सरागसंयम 85, 88  
 सरोवर 41, 42, 43

सर्वार्थसिद्धि 57, 62  
 सल्लेखना 102, 111  
 सागर 38, 61, 62, 65, 121, 122  
 सामायिक 101, 108  
 सिद्धत्व 148  
 सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 141, 142  
 सूक्ष्मसाम्पराय 130, 133  
 सैनी 20, 24  
 स्कन्ध 74, 75  
 स्थापना 3  
 स्थावर 20, 21, 119  
 स्पर्शन 4, 21, 23, 24, 81, 97  
 स्वाध्याय 134, 136  
 हरि 40, 44  
 हिंसा 81, 93, 97, 99, 140  
 हैमवत 40, 44, 47  
 हैरण्यवत 40, 44  
 क्षमा 85, 128  
 क्षायिक 15, 16  
 क्षायोपशमिक 17  
 क्षेत्र 4, 11, 40, 45, 46, 48, 70,  
 105, 106, 150  
 त्रस 20, 21, 119  
 ज्ञान 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
 16, 17, 19, 58, 84, 150  
 ज्ञानावरण 84, 114, 115, 121,  
 123, 146



## INDEX (ENGLISH)

- Activities 82, 113, 127, 142,  
143  
Afflictions 129, 130, 131, 132,  
133  
Air 21, 36  
*Aghāti* karmas 147  
*Airāvata* 40, 46, 49  
Anger 95, 118  
Animal(s) 10, 50, 61, 87, 118  
Apprehension 7, 8, 9  
*Arhat* 147, 150  
Ascetic(s) 86, 91, 101, 102,  
131, 136, 140, 144  
*Asurkumāra* 38  
Atom(s) 69, 74, 76  
Attachment 59, 85, 87, 88, 93,  
96, 97, 100, 128, 135, 137,  
149  
Attainment 17, 18, 22, 33  
Austerities 85, 88, 91, 134  
Aversion 97  
  
Belief 2, 16, 18, 89, 113, 117,  
131,  
*Bharata* 40, 45, 46, 48, 49  
Birth 9, 27, 28, 29, 32, 60, 88,  
89, 118, 124, 144, 145  
Bondage (*bandha*) 3, 113, 114,  
146, 149  
*Brahmaloka* 59  
  
Celestial (beings) 9, 28, 34, 51,  
52, 61, 65, 86, 88, 89, 118  
  
Charity 85, 91, 111  
Clairvoyance 5, 9, 10, 11, 12,  
13, 58, 115  
Cognition 6  
Colour 23, 41, 73, 119  
Colouration (*leṣya*) 18, 37, 51,  
58, 145  
Compassion 85, 98  
Concentration 102, 108, 109,  
137, 138, 140, 141, 142  
Conduct 2, 16, 17, 86, 103,  
117, 118, 126, 132, 133,  
135, 144, 150  
Conduct-deluding 86, 117  
Consciousness 18, 19, 22  
Contemplation 85, 94, 126,  
141  
Cruel concentration 138, 140  
  
Death 72, 102, 111, 119  
Deceitfulness 87, 118  
Degeneration 46  
Deluding karmas 117, 121,  
146, 147  
Desire 54, 96, 103, 111  
Destruction 10, 15, 75, 142,  
146, 148  
Destruction-cum-subsidence  
(of karmas) 10, 15  
Detachment 98  
*Devakuru* 47, 49  
*Dhātakikhanda* 48

## Index (English)

- Dissociation (of karmas;  
*nirjarā*) 3, 85, 88, 127,  
128, 129, 144, 146
- Earth(s) 21, 36, 37, 38
- Energy 16, 120
- Enjoyment 16, 32, 103, 111,  
120, 124, 139
- Equanimity 85, 91, 133
- Existence 5, 18, 75, 76, 88, 91,  
98, 118, 119
- Faith 2, 3, 17, 86, 88, 91, 117,  
130, 131, 135, 144, 148
- Faith-deluding 86, 117, 144
- Falsehood 93, 99
- Fire 21
- Fission 74, 75
- Five-sensed 25
- Fusion 74, 75
- Gift 16, 91, 112, 120
- Ghāti* karmas 147
- Graiveyakas* 57, 58, 59, 62
- Greed 85, 95, 118
- Gross (body) 29
- gupti* 127
- Haimavata* 40
- Hairaṇyavata* 40
- Hari* 40
- Heavenly (beings) 51, 56
- Householder 101, 102, 144
- Human (beings) 10, 47, 49, 50,  
55, 61, 87, 118
- Human life 87
- Immobile (beings) 20, 21
- Infernal (beings) 9, 28, 34, 37,  
38, 61, 63, 87, 118
- Influx (*āsrava*) 3, 80, 81, 82,  
84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,  
92, 126, 128
- Injury 85, 87, 93, 97, 99, 130,  
133, 140
- Intuition 3, 116
- Jambudvīpa* 39, 40, 48
- Kalpas* 57, 59, 61
- Kalpavāsi* 51
- Karma(s) 1, 15, 80, 84, 85, 86,  
87, 88, 89, 91, 92, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 124,  
125, 126, 129, 131, 132,  
141, 144, 146, 147
- Karmic (body) 25, 29
- Knowledge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  
11, 13, 14, 16, 17, 18, 23,  
84, 85, 91, 103, 114, 115,  
131, 135, 143, 145, 146,  
147, 148, 150
- Laukantikas* 59, 65
- Liberated soul 26
- Liberation 1, 2, 3, 138, 147
- Life-karma 87, 88, 89, 118
- Lifetime 35, 43, 47, 50, 58, 61
- Lord (*Indra*) 52
- Luminous (body) 29, 30, 33
- Manuṣottara* 49
- Matter 12, 27, 66, 67, 69, 70,  
72, 73, 74, 113

## Index (English)

- Meditation 94, 134, 135, 137  
Medium of motion 66, 68, 150  
Medium of rest 66, 68  
*Meru* 40, 55  
Mind 7, 9, 20, 23, 25, 72, 80  
Minor (or supplementary vows)  
    102, 106  
Mobile (beings) 20, 21, 119  
Molecule(s) 74, 75, 124  
Mountains 40, 41, 42, 45  
*muhūrta* 50, 122, 123, 137  
  
*naya* (standpoint) 4, 14  
Non-attainment 18  
Non-restraint 17, 85  
Non-soul 3, 66  
Nymphs 43  
  
Obstructive karma(s) 92, 114,  
    120, 121, 131, 146, 147  
Omniscience 5, 12, 115, 146,  
    147  
Omniscient 86, 91, 130, 141  
Origination 75  
  
*palya* 43, 47, 50, 61  
*palyopama* 63, 64  
*pāpa* 80  
Passion(s) 18, 81, 82, 83, 86,  
    99, 105, 113, 118, 131, 133,  
    144, 145  
Perception 16, 17, 84, 114,  
    116, 146, 147, 148  
Perceptual judgment 7  
Perfection 18, 148  
Peripatetic (*devas*) 52, 55, 64  
  
Permanence 75, 76  
Physique-making karma 89  
Plants 21, 24, 118  
Pleasant feeling 85, 116  
Pleasure 53, 72, 96, 111, 130,  
    132  
*pramāṇa* 4, 5  
Pride 59, 118  
Projectable (body) 29, 33  
*pudgala* 67  
*puṇya* 80, 125  
Pure concentration 138, 141,  
    142, 147  
*Puṣkaradvīpa* 48  
  
*Ramyaka* 40  
Reality 1, 3  
Regeneration 46  
Renunciation 128, 134  
Residential (*devas*) 54, 61, 64  
Restraint 17, 85, 88  
Retention 7  
Rise (of karmas) 15  
Rivers 44, 45  
*Ṛjumati* 10  
  
*sāgaropama* 38, 61, 65, 121,  
    122  
Saints 130, 136, 141, 145  
Salvation 18  
*samvara* 126  
*Sarvārthasiddhi* 58, 62,  
*Saudharma* 57, 58, 61  
Scriptural knowledge 5, 9, 11,  
    13, 23, 115, 143, 145  
Self-restraint 118, 128, 145

## Index (English)

- Sense(s) 7, 21, 22, 23, 58, 82, 97  
Sensory knowledge 5, 7, 9, 11, 13, 115  
Sex 18, 34, 118,  
Sexual 54, 96, 105  
*Siddha* 147  
Smell 23, 73  
Sorrowful concentration 138  
Soul(s) 3, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 32, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 124, 147, 148, 149, 150  
Sound 23, 53, 74  
Space 5, 11, 25, 30, 36, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 114, 124  
Space-points 30, 69, 71, 114, 124  
Speculation 7  
Speech 72, 80, 94, 127  
Spontaneous (generation) 27, 29, 32, 34  
Standpoint (*naya*) 4, 14  
Stealing 93, 99, 140  
Stellar (*devas*) 52, 55, 65  
Stoppage (*samvara*) 3, 126, 128, 129  
Subsidence (of karmas) 10, 15  
Substance(s) 2, 3, 8, 11, 12, 66, 67, 69, 73, 75, 76, 78, 79  
Substratum 4, 79, 82, 83, 84, 143  
Taste 23, 73, 119  
Telepathy 5, 10, 11, 12, 115  
Thought-activity 82  
Time 5, 56, 73, 78, 79, 150  
*Tirthamkara* 91, 145  
Touch 23, 53, 73, 119  
Transformable (body) 29, 32  
Transmigrating soul 20, 26  
Unchastity 93, 100  
Universe 69, 70, 98, 128, 141, 148  
Unpleasant feeling 85, 116  
*Uttarakuru* 49  
*Videha* 40, 45, 47, 49  
*Vipulmati* 10  
Virtue 126, 128  
Virtuous concentration 138, 141  
Vow(s) 82, 88, 91, 93, 94, 101, 102, 103, 106, 108, 140, 144  
Water 21  
Wrong belief 18, 113, 117  
Wrong knowledge 14, 17, 18  
*Yojana* 40, 42, 45





## ACKNOWLEDGMENT

The following individuals have graciously ordered, at the pre-print stage, the copies of the book as mentioned against their names:

1. Mrs. Manju Jain 50 copies  
B-13, MDDA Colony,  
Dehradun-248001

*(In fond memory of her parents Late Shri Sumer Chand Jain  
and Late Smt. Sumran Mala Jain)*

2. Mrs. Sonal & Mr. Raghav, 30 copies  
Tanisha and Kushagra  
64-A, Subhash Road,  
Dehradun-248001

3. Mrs. Malika & Mr. Kishore 30 copies  
29 Rajpur Road,  
Dehradun-248001

*(In memory of Malika's Buaji, Late Ms. Mira Jain,  
whose life was an embodiment of celibacy and austerity.)*



“...All my blessings to this great work, which is deep in thought and simple in expression.”

– *Āchārya 108 Vidyānandji Muniraj*

---

“The *Tattvārthsūtra* is regarded as the most authoritative book on Jainism, and the only text authoritative in both *Svetāmbara* and *Digāmbara* sects of Jainism...”

– *From Wikipedia, the free encyclopedia*

---

ISBN 81-903639-2-1

Rs.: 250/-



विकल्प

Vikalp Printers  
Publishing Section

E-mail: [vikalp\\_printers@rediffmail.com](mailto:vikalp_printers@rediffmail.com)